



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, सोमवार, 20 अप्रैल, 2020 ई०
(बैशाख 31, 1942 शक संवत्)

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 1820/दस-लाइसेंस-40/बी०डब्ल्यू०एफ०एल-2 नियमावली/2020-2021

प्रयागराज, दिनांक : 20 अप्रैल, 2020 ई०

अधिसूचना

सा०प०नि-17

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24 और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उक्त अधिनियम सन् 1910 की धारा 18 के खण्ड (घ) के अधीन निर्धारित लाइसेंस शुल्क पर विदेशी मदिरा के बंधित गोदाम के लाइसेंस देने के लिये उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन)
(षष्ठ्म संशोधन) नियमावली, 2020

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी ((विदेशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (षष्ठ्म संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-नियम-2 का संशोधन—उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2011, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

2-परिभाषाएं जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में—

(एक) **“अधिनियम”** का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है।

(दो) **“जिला आबकारी अधिकारी”** का तात्पर्य आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी से है, जो सहायक आबकारी आयुक्त से निम्न श्रेणी अथवा राजस्व विभाग के उप जिलाधिकारी से निम्न श्रेणी का अधिकारी न हो और उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन सम्यक रूप से नियुक्त एवं निहित शक्तियाँ प्राप्त हों

(तीन) **“आबकारी वर्ष”** का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के एक अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली 12 माह की अवधि से है;

(चार) **“प्रपत्र”** का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

(पाँच) **“विदेशी मदिरा का तात्पर्य”** भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल ए बी) से हैय

(छः) **“लाइसेंसधारी”** का तात्पर्य अन्य राज्यों की ऐसी आसवनी, यवासवनी, द्राक्षासवनी या बोटल भराई इकाई से है, जिसे प्रपत्र बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए, बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी, बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी या बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी में विदेशी मदिरा के बंधित गोदाम चलाने की स्वीकृति दी गई हो;

(सात) **“लाइसेंस प्राधिकारी”** का तात्पर्य आबकारी आयुक्त से है;

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

2-परिभाषाएं जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में—

(एक) **“अधिनियम”** का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है।

(दो) **“जिला आबकारी अधिकारी”** का तात्पर्य आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी से है, जो सहायक आबकारी आयुक्त से निम्न श्रेणी अथवा राजस्व विभाग के उप जिलाधिकारी से निम्न श्रेणी का अधिकारी न हो और उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन सम्यक रूप से नियुक्त एवं निहित शक्तियाँ प्राप्त हों

(तीन) **“आबकारी वर्ष”** का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के एक अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली 12 माह की अवधि से है;

(चार) **“प्रपत्र”** का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

(पाँच) **“विदेशी मदिरा का तात्पर्य”** भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (एल ए बी) से है;

(छः) **“लाइसेंसधारी”** का तात्पर्य अन्य राज्यों की ऐसी आसवनी, यवासवनी, द्राक्षासवनी या बोटल भराई इकाई से है, जिसे प्रपत्र बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए, बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी, बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी या बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी में विदेशी मदिरा के बंधित गोदाम चलाने की स्वीकृति दी गई हो;

(सात) **“लाइसेंस प्राधिकारी”** का तात्पर्य आबकारी आयुक्त से है;

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

- (आठ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24क के अधीन थोक विदेशी मदिरा के अनन्य विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिये प्रतिफल से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसा कि समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निर्धारित किया जाये, राजकीय कोषागार में ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी।
- (नौ) "प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी से है, जो आबकारी निरीक्षक से नीचे की श्रेणी का न हो;
- (दस) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित ऐसी धनराशि से है जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत राष्ट्रीय बचत पत्र /सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के पूर्ण दावों और देयों के प्रतिफल के अधीन लाइसेंसों के अन्तिम व्यवस्थापन के बाद प्रतिदेय होगी।
- (ग्यारह) "प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा 30 के अधीन विदेशी मदिरा, वाइन, बियर और कम तीव्रता के मादक पेय पर राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा कोषागार में जमा की जाएगी।
- (बारह) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 के गुणांक में अगले स्तर पर लाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो अतिरिक्त एक्स आसवनी/एक्स यवासवनी मूल्य के रूप में लाइसेंस प्राप्त बंधित गोदाम के स्तर पर संदेय होगी और बंधित गोदाम के लाइसेंसधारी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से वसूली योग्य होगी तथा जो बाद में थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अलावा वसूल की जा सकेगी।
- (तेरह) "आयात परमिट फीस" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा विदेश से आयात की गयी विदेशी मदिरा, वाइन, बीयर एवं एल0ए0बी0 पर अधिरोपित की जाने वाली फीस से है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (आठ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24क के अधीन थोक विदेशी मदिरा के अनन्य विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिये प्रतिफल से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसा कि समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निर्धारित किया जाये, राजकीय कोषागार में ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी।
- (नौ) "प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी से है, जो आबकारी निरीक्षक से नीचे की श्रेणी का न हो;
- (दस) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित ऐसी धनराशि से है जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के पूर्ण दावों और देयों के प्रतिफल के अधीन लाइसेंसों के अन्तिम व्यवस्थापन के बाद प्रतिदेय होगी।
- (ग्यारह) "प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा 30 के अधीन विदेशी मदिरा, वाइन, बियर और कम तीव्रता के मादक पेय पर राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शुल्क से है, जो आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा कोषागार में जमा की जाएगी।
- (बारह) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य अधिकतम फुटकर मूल्य को 10 के गुणांक में अगले स्तर पर लाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो अतिरिक्त एक्स आसवनी/एक्स यवासवनी मूल्य के रूप में लाइसेंस प्राप्त बंधित गोदाम के स्तर पर संदेय होगी और बंधित गोदाम के लाइसेंसधारी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से वसूली योग्य होगी तथा जो बाद में थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अलावा वसूल की जा सकेगी।
- (तेरह) "आयात परमिट फीस" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा विदेश से आयात की गयी विदेशी मदिरा, वाइन, बीयर एवं एल0ए0बी0 पर अधिरोपित की जाने वाली फीस से है।

3-नियम-3 का सशोधन—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में, दिए गए विद्यमान नियम-3 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

3-लाइसेंस की स्वीकृति—

3 (1) आबकारी आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जो संयुक्त आबकारी आयुक्त से निम्न श्रेणी का न हो, के द्वारा विदेशी शराब के बंधित गोदाम के लिये विदेशी शराब के थोक विक्रय का लाइसेंस निर्धारित संलग्न प्रारूप

(बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए,

बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी,

बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी,

बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी) लाइसेंस शुल्क का भुगतान किये जाने, प्रतिभूति धनराशि जमा किये जाने और आबकारी आयुक्त के पक्ष में प्रपत्र बी0डब्लू0एफ0एल0-3 में सामान्य बन्ध-पत्र निष्पादित किये जाने पर स्वीकृत किया जायेगा।

(2) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय के थोक विक्रय के लिये विदेशी मदिरा के बंधित गोदाम का लाइसेंस, लाइसेंस प्राप्त अन्य राज्यों की आसवनियों, यवासवनियों, द्राक्षासवनियों को दिया जायेगा। अन्य राज्य के बाटलिंग प्लान्ट का लाइसेंसधारक भी लाइसेंस के लिये अर्ह होगा परन्तु ऐसे लाइसेंसधारक की बाटलिंग इकाई निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करती हो—

(एक) बाटलिंग इकाई की वार्षिक कारबार व्यापारवर्त रुपये 150 करोड़ (राजस्व/ प्रतिफल शुल्क सहित) से कम न हो;

(दो) बाटलिंग इकाई की वार्षिक उत्पादन क्षमता, पाँच लाख केसेस से कम न हो;

(तीन) बाटलिंग इकाई का कारवार कम से कम 03 राज्यों में हो, जिसमें प्रत्येक की जनसंख्या एक करोड़ से कम न हो

(3) लाइसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रपत्र बी0डब्लू0एफ0एल0-1 में किया जायेगा। यदि राज्य के बाहर की कोई इकाई विभिन्न जिलों में बाण्ड लेना चाहे तो ऐसा एकल आवेदन के द्वारा किया जा सकता है। उक्त इकाई प्रत्येक जिला / लाइसेंस हेतु पृथक-पृथक लाइसेंस फीस प्रभारित करेगी।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

3-लाइसेंस की स्वीकृति—

3 (1) आबकारी आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जो संयुक्त आबकारी आयुक्त से निम्न श्रेणी का न हो, के द्वारा विदेशी शराब के बंधित गोदाम के लिये विदेशी शराब के थोक विक्रय का लाइसेंस निर्धारित संलग्न प्रारूप

(बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए,

बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी,

बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी,

बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी) लाइसेंस शुल्क का भुगतान किये जाने, प्रतिभूति धनराशि जमा किये जाने और आबकारी आयुक्त के पक्ष में प्रपत्र बी0डब्लू0एफ0एल0-3 में सामान्य बन्ध-पत्र निष्पादित किये जाने पर स्वीकृत/नवीकृत किया जायेगा।

(2) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय के थोक विक्रय के लिये विदेशी मदिरा के बंधित गोदाम का लाइसेंस, लाइसेंस प्राप्त अन्य राज्यों की आसवनियों, यवासवनियों, द्राक्षासवनियों को दिया जायेगा। अन्य राज्य के बाटलिंग प्लान्ट का लाइसेंसधारक भी लाइसेंस के लिये अर्ह होगा परन्तु ऐसे लाइसेंसधारक की बाटलिंग इकाई निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करती हो—

(एक) बाटलिंग इकाई की वार्षिक कारबार व्यापारवर्त रुपये 100 करोड़ (राजस्व/ आबकारी शुल्क सहित) से कम न हो;

(दो) बाटलिंग इकाई की वार्षिक उत्पादन क्षमता, पाँच लाख केसेस से कम न हो;

(तीन) बाटलिंग इकाई का कारवार कम से कम 03 राज्यों में हो, जिसमें प्रत्येक की जनसंख्या एक करोड़ से कम न हो

(3) लाइसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रपत्र बी0डब्लू0एफ0एल0-1 में किया जायेगा। यदि राज्य के बाहर की कोई इकाई विभिन्न जिलों में बाण्ड लेना चाहे तो ऐसा एकल आवेदन के द्वारा किया जा सकता है। उक्त इकाई प्रत्येक जिला / लाइसेंस हेतु पृथक-पृथक लाइसेंस फीस प्रभारित करेगी।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(4) प्रतिभूति धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से निर्धारित की जायेगी, जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत राष्ट्रीय बचत पत्र /सावधि जमा रसीद के रूप में अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी ।

(5) लाइसेंस फीस, लाइसेंसधारी द्वारा ई-पेमेन्ट के माध्यम से सरकारी कोषागार में या राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट, जो आबकारी आयुक्त को संदेय हो, जमा की जायेगी।

(6) लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके आंशिक भाग के लिए होगी, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया हो।

(7) लाइसेंसधारी को लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करने अथवा उप- पट्टे पर देने की अनुमति नहीं होगी।

(8) राज्य के बाहर की किसी इकाई, जिसकी अन्य राज्यों में कई इकाईयां हों, जो उत्तर प्रदेश में बाण्ड लाइसेंस लेकर अपनी विभिन्न इकाईयों में विनिर्मित आई0एम0एफ0एल0 /बीयर/ वाइन/ एल0ए0बी0 की बिक्री एक ही परिसर से करना चाहती हों, को प्रत्येक इकाई के लिये विहित लाइसेंस फीस प्रभारित करने के पश्चात् अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है विभिन्न इकाईयों के पारेषण उन परिसरों में पृथक-पृथक भण्डारित किये जायेंगे।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(4) प्रतिभूति धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से निर्धारित की जायेगी, जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत **सावधि जमा रसीद** के रूप में अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी ।

(5) लाइसेंस फीस, लाइसेंसधारी द्वारा ई-पेमेन्ट के माध्यम से सरकारी कोषागार में या राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट, जो आबकारी आयुक्त को संदेय हो, जमा की जायेगी।

(6) लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके आंशिक भाग के लिए होगी, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया हो।

(7) लाइसेंसधारी को लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करने अथवा उप- पट्टे पर देने की अनुमति नहीं होगी।

(8) राज्य के बाहर की किसी इकाई, जिसकी अन्य राज्यों में कई इकाईयां हों, जो उत्तर प्रदेश में बाण्ड लाइसेंस लेकर अपनी विभिन्न इकाईयों एवं **एफ0एल0-1 और एफ0एल0-1ए को सम्मिलित करते हुए एक मास्टर वेयर हाउस** से विनिर्मित आई0एम0एफ0एल0 /बीयर/ वाइन/ एल0ए0बी0 की बिक्री एक ही परिसर से करना चाहती हों, को प्रत्येक इकाई के लिये विहित लाइसेंस फीस प्रभारित करने के पश्चात् अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है विभिन्न इकाईयों के पारेषण उन परिसरों में पृथक-पृथक भण्डारित किये जायेंगे।

परन्तु यह और कि प्रपत्र वि0म0-2 एवं वि0म0-2ख में लाइसेंसधारण करने व कोई थोक लाइसेंसधारक, एकल मांग पत्र के अन्तर्गत भारत निर्मित विदेशी मदिरा/ बीयर/वाइन/ कम तीव्रता के मादक पेय के विभिन्न ब्राण्डों की आपूर्ति ऐसे मास्टर वेयरहाउस से प्राप्त कर सकता है।

प्रपत्र बी0 डब्लू एफ0 एल0-2ए, बी0 डब्लू एफ0 एल0-2बी, बी0 डब्लू एफ0 एल0-2सी एवं बी0 डब्लू एफ0 एल0-2डी में लाइसेंस का नवीकरण, आबकारी आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी राज्य सरकार द्वारा विहित निबन्धन एवं शर्तों के अधीन कर सकता है।

(9) नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।

4-नियम-5 का संशोधन—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ एक में दिए गए विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

5. विदेशी शराब की प्राप्ति— विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन व कम तीव्रता का मादक पेय, उत्तर प्रदेश के बाहर की अपनी आसवनी, यवासवनी, द्राक्षासवनी या बंधित गोदाम से बन्ध पत्र के लाइसेंसधारक द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए नियमावली के अधीन लाइसेंसधारक को अपने जिले से सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा परमिट निर्धारित संलग्न प्रारूप एफ0एल0-22 प्रपत्र पर जारी किया गया हो।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

5. विदेशी शराब की प्राप्ति— विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन व कम तीव्रता का मादक पेय, उत्तर प्रदेश के बाहर की अपनी आसवनी, यवासवनी, द्राक्षासवनी या बंधित गोदाम से बन्ध पत्र के लाइसेंसधारक द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए नियमावली के अधीन लाइसेंसधारक को अपने जिले से सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी या सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त द्वारा परमिट निर्धारित संलग्न प्रारूप एफ0एल0-22 प्रपत्र पर जारी किया गया हो।

5-नियम-16 का संशोधन—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ एक में दिए गए विद्यमान नियम-16 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

16—निलम्बन, निरस्तीकरण तथा शास्तियां—

(1) लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है और प्रतिभूति धनराशि को समपट्ट कर सकता है और जुर्माना अधिरोपित कर सकता है:—

(क) यदि लाइसेंसप्राप्त परिसर से शराब की कोई ऐसी बोतल या पात्र, विक्रय करते हुये पाया जाय, जिस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड न लगा हो।

(ख) यदि लाइसेंसप्राप्त परिसर में किसी अन्य प्रकार की मदिरा या मादक औषधि पायी जाती है जिसके लिये लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है।

(ग) यदि लाइसेंसधारी थोक विक्रेता से आबकारी आयुक्त के समक्ष ब्रांड रजिस्ट्रेशन के समय निर्धारित की गयी एक्स बांड मूल्य, यदि कोई हो, प्रतिफल शुल्क और अन्य करों और शुल्कों को छोड़कर से अधिक मूल्य प्रभारित करता है।

(घ) यदि लाइसेंसप्राप्त परिसर में कोई अनधिकृत सुरक्षा कोड यन्त्र, स्प्रिट, रंग, सुगन्ध आदि पाया जाता है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

16—निलम्बन, निरस्तीकरण तथा शास्तियां—

(1) लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है और प्रतिभूति धनराशि को समपट्ट कर सकता है और जुर्माना अधिरोपित कर सकता है:—

(क) यदि लाइसेंसप्राप्त परिसर से शराब की कोई ऐसी बोतल या पात्र, विक्रय करते हुये पाया जाय, जिस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड न लगा हो।

(ख) यदि लाइसेंसप्राप्त परिसर में किसी अन्य प्रकार की मदिरा या मादक औषधि पायी जाती है जिसके लिये लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है।

(ग) यदि लाइसेंसधारी थोक विक्रेता से आबकारी आयुक्त के समक्ष ब्रांड रजिस्ट्रेशन के समय निर्धारित की गयी एक्स बांड मूल्य, यदि कोई हो, प्रतिफल शुल्क और अन्य करों और शुल्कों को छोड़कर से अधिक मूल्य प्रभारित करता है

(घ) यदि लाइसेंसप्राप्त परिसर में कोई अनधिकृत सुरक्षा कोड यन्त्र, स्प्रिट, रंग, सुगन्ध आदि पाया जाता है।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

- (ड.) यदि लाइसेंसधारी द्वारा अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण अथवा कपटपूर्ण प्रविष्टियों की गयी हों जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की हानि हुई हो।
- (च) यदि अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध लाइसेंसधारी के कब्जे में कोई मदिरा या मादक ओषधि पायी जाय।
- (छ) यदि लाइसेंसधारी मदिरा की आपूर्ति हेतु उसके मूल्य के साथ कर, यदि कोई हो, सहित मांग पत्र के प्राप्त होने के 48 घण्टों के अन्दर आपूर्ति नहीं कर पाता।
- (ज) यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस प्रपत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करता है।
- (झ) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा का जलापमिश्रण या अन्य पदार्थ का मिश्रण/तनुकरण पाया जाता है/उच्च श्रेणी की मदिरा से निम्न श्रेणी की मदिरा का अपमिश्रण पाया जाता है तो विधि के अन्य सुसंगत उपबन्धों के अधीन कार्यवाही भी की जायेगी।
- (2) यदि उपखण्ड (1) में उल्लिखित अनियमिततायें पायी गईं तो लाइसेंस प्राधिकारी, लाइसेंस तत्काल निलम्बित करेगा और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति धनराशि के समपहरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। लाइसेंसधारी नोटिस प्राप्त होने के 7 दिन के अन्दर अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेगा। तत्पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी, समुचित आदेश, जैसा वह ठीक समझे, पारित करेगा।
- (3) उपनियम (2) की प्रक्रिया अपनाने के बाद लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी से, उसके या उसके विक्रय सहायक द्वारा की गयी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों या अनियमितताओं के फलस्वरूप हुई आबकारी राजस्व की क्षति की वसूली करेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (ड.) यदि लाइसेंसधारी द्वारा अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण अथवा कपटपूर्ण प्रविष्टियों की गयी हों जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की हानि हुई हो।
- (च) यदि अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध लाइसेंसधारी के कब्जे में कोई मदिरा या मादक औषधि पायी जाय।
- (छ) यदि लाइसेंसधारी मदिरा की आपूर्ति हेतु उसके मूल्य के साथ कर, यदि कोई हो, सहित मांग पत्र के प्राप्त होने के 48 घण्टों के अन्दर आपूर्ति नहीं कर पाता।
- (ज) यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस प्रपत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करता है।
- (झ) यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा का जलापमिश्रण या अन्य पदार्थ का मिश्रण/तनुकरण पाया जाता है/उच्च श्रेणी की मदिरा से निम्न श्रेणी की मदिरा का अपमिश्रण पाया जाता है तो विधि के अन्य सुसंगत उपबन्धों के अधीन कार्यवाही भी की जायेगी।
- (2) यदि उपखण्ड (1) में उल्लिखित अनियमिततायें पायी गईं तो लाइसेंस प्राधिकारी, लाइसेंस तत्काल निलम्बित करेगा और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति धनराशि के समपहरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। लाइसेंसधारी नोटिस प्राप्त होने के 7 दिन के अन्दर अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेगा। तत्पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी, समुचित आदेश, जैसा वह ठीक समझे, पारित करेगा।
- (3) उपनियम (2) की प्रक्रिया अपनाने के बाद लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी से, उसके या उसके विक्रय सहायक द्वारा की गयी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों या अनियमितताओं के फलस्वरूप हुई आबकारी राजस्व की क्षति की वसूली करेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

- (4) बाण्ड लाइसेंसों पर प्रशमन योग्य उल्लंघन की स्थिति में निम्नानुसार न्यूनतम प्रशमन शुल्क आरोपित की जायेगी—

क्र०सं०	उल्लंघन का प्रकार	प्रथम बार (रु० में)	द्वितीय बार (रु० में)	तृतीय बार (रु० में)
1	2	3	4	5
1	बिक्री में वृद्धि हेतु फुटकर लाइसेंसधारी को प्रलोभन देना।	10,000	20,000	50,000
2	स्टॉक लेखानुसार न पाया जाना।	20,000	30,000	50,000
3	इण्डेन्ट रजिस्टर उचित ढंग से अनुरक्षित न किया जाना।	10,000	20,000	50,000
4	लाइसेंसप्राप्त परिसर के बाहर नियमानुसार निर्धारित बोर्ड न लगा होना। बोर्ड पर आवश्यक सूचनायें अंकित न होना।	10,000	15,000	20,000
5	सी0सी0टी0वी0 की समुचित व्यवस्था न होना अथवा इसका कार्य न करना।	10,000	20,000	30,000
6	निर्धारित समयान्तर्गत निकासी न दे पाना।	20,000	40,000	50,000
7	निर्धारित न्यूनतम स्टॉक न पाया जाना।	20,000	30,000	50,000
8	लाइसेंस प्रस्तुत न होना।	5,000	10,000	30,000
9	अप्राधिकृत विक्रेता द्वारा लाइसेंस का संचालन किया जाना।	5,000	10,000	20,000
10	साफ-सफाई की उचित व्यवस्था न होना।	5,000	10,000	15,000
11	परिसर का अनुमोदित न होना।	10,000	25,000	50,000
12	बिना अनुमति के परिसर का विस्तार करना।	10,000	20,000	30,000
13	फुटकर दुकानवार दी गयी निकासी की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार मासिक सूचना समय से प्रेषित न किया जाना।	10,000	20,000	50,000

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (4) बाण्ड लाइसेंसों पर प्रशमन योग्य उल्लंघन की स्थिति में निम्नानुसार न्यूनतम प्रशमन शुल्क आरोपित की जायेगी—

क्र०सं०	उल्लंघन का प्रकार	प्रथम बार (रु० में)	द्वितीय बार (रु० में)	तृतीय बार (रु० में)
1	2	3	4	5
1	बिक्री में वृद्धि हेतु फुटकर लाइसेंसधारी को प्रलोभन देना।	10,000	20,000	50,000
2	स्टॉक लेखानुसार न पाया जाना।	20,000	30,000	50,000
3	इण्डेन्ट रजिस्टर उचित ढंग से अनुरक्षित न किया जाना।	10,000	20,000	50,000
4	लाइसेंसप्राप्त परिसर के बाहर नियमानुसार निर्धारित बोर्ड न लगा होना। बोर्ड पर आवश्यक सूचनायें अंकित न होना।	10,000	15,000	20,000
5	सी0सी0टी0वी0 की समुचित व्यवस्था न होना अथवा इसका कार्य न करना।	10,000	20,000	30,000
6	निर्धारित समयान्तर्गत निकासी न दे पाना।	20,000	40,000	50,000
7	निर्धारित न्यूनतम स्टॉक न पाया जाना।	20,000	30,000	50,000
8	लाइसेंस प्रस्तुत न होना।	5,000	10,000	30,000
9	अप्राधिकृत विक्रेता द्वारा लाइसेंस का संचालन किया जाना।	5,000	10,000	20,000
10	साफ-सफाई की उचित व्यवस्था न होना।	5,000	10,000	15,000
11	परिसर का अनुमोदित न होना।	10,000	25,000	50,000
12	बिना अनुमति के परिसर का विस्तार करना।	10,000	20,000	30,000
13	फुटकर दुकानवार दी गयी निकासी की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार मासिक सूचना समय से प्रेषित न किया जाना।	10,000	20,000	50,000
14	यदि स्टॉक रजिस्टर मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है।	20,000	25,000	30,000
15	यदि स्टॉक रजिस्टर अपूर्ण पाया जाता है।	10,000	15,000	20,000
16	किसी किसी विशेष दुकान हेतु निर्गत मदिरा दूसरी दुकान पर सद्मावी कारणों से पायी जाती है।	25,000	50,000	लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही
17	अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक 01-16 तक पर न अंकित हो।	2,000	5,000	10,000

प्रशमन योग्य अनियमितताओं के मामले में उप आबकारी आयुक्त तथा उससे उच्च श्रेणी के अधिकारियों को अनियमितता का प्रशमन करने तथा प्रशमन शुल्क स्वीकृत करने का हक होगा।

प्रशमन योग्य अनियमितताओं के मामले में उप आबकारी आयुक्त तथा उससे उच्च श्रेणी के अधिकारियों को अनियमितता का प्रशमन करने तथा प्रशमन शुल्क स्वीकृत करने का हक होगा।

6-बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए प्रारूप का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान प्रारूप बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रारूप रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

विदेशी मदिरा बंधित गोदाम
(बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए)

विदेशी मदिरा बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का
लाइसेंस
लाइसेंस संख्या

(नियम-3)

आवेदक का फोटो

गोदाम का फोटो

गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....

1- लाइसेंस संख्या.....
2-जिला.....
3-लाइसेंसधारक का नाम, पता एवं आधार संख्या.....
.....

..... ने विदेशी मदिरा बंधित गोदाम-2ए के लिए लाइसेंस शुल्क रू0 (शब्दों में)..... तथा प्रतिभूति धनराशि रू0 (शब्दों में)का सरकारी कोषागार में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से या राष्ट्रीय बचत पत्र /सावधि जमा रसीद के माध्यम से आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत नीचे यथा उल्लिखित विस्तृत विवरण जमा किया है। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निष्पादित किया है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

विदेशी मदिरा बंधित गोदाम
(बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए)

विदेशी मदिरा बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का
लाइसेंस
लाइसेंस संख्या

(नियम-3)

आवेदक का फोटो

गोदाम का फोटो

गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....

1- लाइसेंस संख्या.....
2-जिला.....
3-लाइसेंसधारक का नाम, पता एवं आधार संख्या.....
.....

..... ने विदेशी मदिरा बंधित गोदाम-2ए के लिए लाइसेंस शुल्क रू0 (शब्दों में)..... तथा प्रतिभूति धनराशि रू0 (शब्दों में)का सरकारी कोषागार में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से या सावधि जमा रसीद के माध्यम से आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत नीचे यथा उल्लिखित विस्तृत विवरण जमा किया है। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निष्पादित किया है।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम 4 सन् 1910) और तद्धीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन बोतल बन्द विदेशी मदिरा को उत्तर प्रदेश में बन्ध-पत्र के अधीन आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान.....जिला..... (जिसे आगे लाइसेंस प्राप्त परिसर कहा गया है) के लिये दिनांक से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 31 मार्च, को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अधीन, जिनका लाइसेंसधारी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर, लाइसेंसधारी, अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और उसका लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, एतद्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

परिसर—भवन स्वामी का नाम व पूरा पता.....

स्थान.....ग्राम/मुहल्ला.....

थाना.....तहसील.....जिला.....

उत्तर.....दक्षिण.....

पूर्व.....पश्चिम.....

शर्तें

1. उक्त बंधित गोदाम से विदेशी मदिरा की निकासी राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बन्ध-पत्र या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ0एल0-2 लाइसेंसधारी को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के पश्चात् ही दी जायेगी।
2. उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित केवल ऐसी तीव्रता की ही विदेशी मदिरा की निकासी दी जायेगी।
3. बंधित गोदाम का प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी विदेशी मदिरा, जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम 4 सन् 1910) और तद्धीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन बोतल बन्द/कैन्स/टेट्रा पैक्स विदेशी मदिरा को उत्तर प्रदेश में बन्ध-पत्र के अधीन आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान.....जिला..... (जिसे आगे लाइसेंस प्राप्त परिसर कहा गया है) के लिये दिनांक से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 31 मार्च, को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अधीन, जिनका लाइसेंसधारी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर, लाइसेंसधारी, अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और उसका लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, एतद्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

परिसर—भवन स्वामी का नाम व पूरा पता.....

स्थान.....ग्राम/मुहल्ला.....

थाना.....तहसील.....जिला.....

उत्तर.....दक्षिण.....

पूर्व.....पश्चिम.....

शर्तें

1. उक्त बंधित गोदाम से विदेशी मदिरा की निकासी राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बन्ध-पत्र या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ0एल0-2 लाइसेंसधारी को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के पश्चात् ही दी जायेगी।
2. उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित केवल ऐसी तीव्रता की ही विदेशी मदिरा की निकासी दी जायेगी।
3. बंधित गोदाम का प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी विदेशी मदिरा, जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है।

शर्तें

4. लाइसेंसधारी थोक बिक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रान्डों की मांगों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्रान्डों के न्यूनतम स्टॉक को अनुरक्षित रखेगा।
5. गोदाम में विदेशी मदिरा के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा। लाइसेंसधारी रैको की पर्याप्त संख्या, आल्मारियों, बक्से और अन्य उपस्कर, भंडारण स्टॉक के लिये जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा।
6. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देशित बोतल/ फ्लास्क की धारिता में विदेशी मदिरा की आपूर्ति करेगा।
7. बोतलों पर लगाये गये लेबुलों पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली 1969 में विहित सभी आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। लाइसेंसधारी गोदाम परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड के लागू करने के लिये उचित प्रबन्ध करेगा। मदिरा के किसी भी बोतल/टेट्रापैक की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा न हो।
8. लाइसेंसधारी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित अधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और विदेशी मदिरा के आने वाले प्रेषित माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबन्ध करेगा। गोदाम में आई0पी0 एड्रेस रखने वाला कैमरा लगाया जायेगा। गोदामों में अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
9. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम में विदेशी मदिरा की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टॉक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में मदिरा का सही-सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के सभी पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। विदेशी मदिरा की प्राप्ति व निकासी सहित पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मॉगने पर खोली जायेगी। सम्बन्धित विवरण का एम0आई0एस0 (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा।

शर्तें

4. लाइसेंसधारी थोक बिक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रान्डों की मांगों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्रान्डों के न्यूनतम स्टॉक को अनुरक्षित रखेगा।
5. गोदाम में विदेशी मदिरा के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा। लाइसेंसधारी रैको की पर्याप्त संख्या, आल्मारियों, बक्से और अन्य उपस्कर, भंडारण स्टॉक के लिये जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा।
6. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देशित बोतल/फ्लास्क/ **कैन्स/ टेट्रा पैक्स** की धारिता में विदेशी मदिरा की आपूर्ति करेगा।
7. बोतलों पर लगाये गये लेबुलों पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली 1969 में विहित सभी आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। लाइसेंसधारी गोदाम परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड के लागू करने के लिये उचित प्रबन्ध करेगा। मदिरा के किसी भी बोतल/ टेट्रापैक की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा न हो।
8. लाइसेंसधारी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित अधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और विदेशी मदिरा के आने वाले प्रेषित माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबन्ध करेगा। गोदाम में आई0पी0 एड्रेस रखने वाला कैमरा लगाया जायेगा। गोदामों में अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
9. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम में विदेशी मदिरा की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टॉक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में मदिरा का सही-सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के सभी पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। विदेशी मदिरा की प्राप्ति व निकासी सहित पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मॉगने पर खोली जायेगी। सम्बन्धित विवरण का एम0आई0एस0 (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा।

शर्तें

10. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम से मदिरा की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये सभी सामान्य नियमों द्वारा नियमतः उत्तरदायी होगा।
11. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार ब्रान्डों के रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम थोक व अधिकतम फुटकर बिक्री की दरें, एक्स बाण्ड मूल्य, ब्राण्डों की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी किसी लेबुल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबुल धारितावार के अनुमोदित शुल्क के साथ ट्रेजरी चालान संलग्न करके संबंधित जिले के जिला आबकारी अधिकारी, जो उसके अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा, अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न कर दी जाय।
12. उत्तर प्रदेश में आयात की जाने वाली विदेशी मदिरा की पेटियों (कार्टन) की सभी छः सतहों (फेस) पर गाढ़े लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में "फार सेल इन यूपी" मुद्रित कराया जायेगा।
13. लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम 4 सन् 1910) और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन इस लाइसेंस की शर्तों का पालन करेगा।
14. यदि लाइसेंस निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीकृत नहीं होता है तो लाइसेंसधारी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये शराब के थोक स्टॉक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के अधीन केवल बचे हुये स्टॉक का निस्तारण करेगा।

शर्तें

10. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम से मदिरा की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये सभी सामान्य नियमों द्वारा नियमतः उत्तरदायी होगा।
11. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार ब्रान्डों के रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम थोक व अधिकतम फुटकर बिक्री की दरें, एक्स बाण्ड मूल्य, ब्राण्डों की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी किसी लेबुल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबुल धारितावार के अनुमोदित शुल्क के साथ ट्रेजरी चालान संलग्न करके संबंधित जिले के जिला आबकारी अधिकारी, जो उसके अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा, अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न कर दी जाय।
12. उत्तर प्रदेश में आयात की जाने वाली विदेशी मदिरा की पेटियों (कार्टन) की सभी छः सतहों (फेस) पर गाढ़े लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में "फार सेल इन यूपी" मुद्रित कराया जायेगा।
13. लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम 4 सन् 1910) और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन इस लाइसेंस की शर्तों का पालन करेगा।
14. यदि लाइसेंस निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीकृत नहीं होता है तो लाइसेंसधारी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये शराब के थोक स्टॉक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के अधीन केवल बचे हुये स्टॉक का निस्तारण करेगा।

शर्तें

15. लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गोंधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों में 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 बजे सायं तक खुला रहेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी/ जिलाधिकारी संबंधित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
16. जिलों के एफ0एल0-2 लाइसेंसधारियों से विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु मॉग-पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी। जिसमें विफल होने पर लाइसेंसधारी के विरुद्ध दण्डिक कार्यवाही की जा सकती है।
17. बंधित गोदाम से निकासी होने वाले सभी ब्रान्डों की बोतलों के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबुलों पर बिना अधिकतम फुटकर बिक्रय मूल्य अंकित किये हुये मदिरा की बिक्री प्रतिबन्धित है।
- 18- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।

लाइसेंस शुल्क/प्रतिभूति धनराशि का विवरण

बैंक का नाम	डिमांड ड्राफ्ट/ ट्रेजरी चालान संख्या/एफ0डी0आर/राष्ट्रीय बचत पत्र संख्या	दिनांक	धनराशि

दिनांक

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

शर्तें

15. लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गोंधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों में 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 बजे सायं तक खुला रहेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी/ जिलाधिकारी संबंधित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
16. जिलों के एफ0एल0-2 लाइसेंसधारियों से विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु मॉग-पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी। जिसमें विफल होने पर लाइसेंसधारी के विरुद्ध दण्डिक कार्यवाही की जा सकती है।
17. बंधित गोदाम से निकासी होने वाले सभी ब्रान्डों की बोतलों के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबुलों पर बिना अधिकतम फुटकर बिक्रय मूल्य अंकित किये हुये मदिरा की बिक्री प्रतिबन्धित है।
- 18- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।

लाइसेंस शुल्क/प्रतिभूति धनराशि का विवरण

बैंक का नाम	डिमांड ड्राफ्ट/ ट्रेजरी चालान संख्या/एफ0डी0आर/राष्ट्रीय बचत पत्र संख्या	दिनांक	धनराशि

दिनांक

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

7-बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी प्रारूप का संशोधन-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान प्रारूप बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रारूप रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

बीयर बंधित गोदाम
(बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी)

बीयर बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का लाइसेंस लाइसेंस संख्या

[नियम (3)]

आवेदक का फोटो

गोदाम का फोटो

गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....

1-लाइसेंस संख्या.....

2-जिला.....

3-लाइसेंसधारक का नाम, पता एवं आधार संख्या

.....ने बीयर बंधित गोदाम-2बी के लिए लाइसेंस शुल्क रुपये.....(शब्दों में)..... तथा प्रतिभूति धनराशि रुपये (शब्दों में)का सरकारी कोषागार में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से या आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत राष्ट्रीय बचत पत्र/सावधि जमा रसीद के माध्यम से रखी जायेगी और नीचे यथा उल्लिखित विस्तृत विवरण जमा किया है। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निष्पादित किया है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

बीयर बंधित गोदाम
(बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी)

बीयर बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का लाइसेंस लाइसेंस संख्या

[नियम (3)]

आवेदक का फोटो

गोदाम का फोटो

गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....

1- लाइसेंस संख्या.....

2-जिला.....

3-लाइसेंसधारक का नाम, पता एवं आधार संख्या

.....ने बीयर बंधित गोदाम-2बी के लिए लाइसेंस शुल्क रुपये..... (शब्दों में)..... तथा प्रतिभूति धनराशि रुपये (शब्दों में)का सरकारी कोषागार में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से या आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से रखी जायेगी और नीचे यथा उल्लिखित विस्तृत विवरण जमा किया है। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निष्पादित किया है।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम 4, सन् 1910) और तदधीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन बोतल बन्द/केन्स बीयर को उत्तर प्रदेश में बंधपत्र के अधीन आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान.....जिला..... (जिसे आगे लाइसेंस प्राप्त परिसर कहा गया है), के लिये दिनांक से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 31 मार्च..... को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अधधीन जिनका लाइसेंसधारी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंसधारी अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंस प्रदान किया जाता है—

परिसर—स्वामी का नाम व पता.....

स्थान—.....ग्राम/मुहल्ला.....

थाना.....तहसील.....जिला

उत्तर दक्षिण

पूर्व पश्चिम

शर्तें

1. उक्त बंधित गोदाम से बीयर की निकासी राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बंध-पत्र, या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ0एल0-2 व एफ0एल0-2बी लाइसेंसधारी को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के पश्चात् ही दी जायेगी।
2. उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर ऐसे (5 वीवी से 8 वीवी) निर्धारित तीव्रता की ही बीयर की निकासी दी जायेगी।
3. लाइसेंसधारी गोदाम के प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी बीयर जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम 4, सन् 1910) और तदधीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन बोतल बन्द/केन्स बीयर को उत्तर प्रदेश में बंधपत्र के अधीन आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान.....जिला..... (जिसे आगे लाइसेंस प्राप्त परिसर कहा गया है), के लिये दिनांक .. से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 31 मार्च..... को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अधधीन जिनका लाइसेंसधारी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंसधारी अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंस प्रदान किया जाता है—

परिसर—स्वामी का नाम व पता.....

स्थान—.....ग्राम/मुहल्ला.....

थाना.....तहसील.....जिला

उत्तर दक्षिण

पूर्व पश्चिम

शर्तें

1. उक्त बंधित गोदाम से बीयर की निकासी राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बंध-पत्र, या राज्य के किसी थोक विक्रेता **एफ0एल0-2बी** लाइसेंसधारी को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के पश्चात् ही दी जायेगी।
2. उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर ऐसे (5 वीवी से 8 वीवी) निर्धारित तीव्रता की ही बीयर की निकासी दी जायेगी।
3. लाइसेंसधारी गोदाम के प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी बीयर जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है।

शर्तें

4. लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रांडो की मांगों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्रांडों के न्यूनतम स्टॉक को अनुरक्षित रखेगा।
5. गोदाम में बीयर के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा। लाइसेंसधारी रैकों की पर्याप्त संख्या, आलमारियों, बाक्सों और अन्य उपस्कर भंडारण स्टॉक के लिये, जो आवश्यक हों, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा।
6. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देशित बोटल/केन्स की धारिता में बीयर की आपूर्ति करेगा।
7. बोटलों पर लगाये गये लेबुलों पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली, 1969 में विहित सभी आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। लाइसेंसधारी सुरक्षा कोड हेतु गोदाम परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लागू करने के लिये उचित प्रबंध करेगा। बीयर के किसी भी बोटल/केन्स की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा न हो।
8. लाइसेंसधारी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और बीयर के आने वाले माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबंध करेगा। गोदाम में आई0पी0 एड्रेस रखने वाला कैमरा लगाया जायेगा और अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
9. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम में बीयर की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टॉक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में बीयर का सही-सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। बीयर की प्राप्ति व निकासी के पासों के पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मॉगने पर प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित विवरण का एम0आई0एस0 (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा।

शर्तें

4. लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रांडो की मांगों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्रांडों के न्यूनतम स्टॉक को अनुरक्षित रखेगा।
5. गोदाम में बीयर के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा। लाइसेंसधारी रैकों की पर्याप्त संख्या, आलमारियों, बाक्सों और अन्य उपस्कर भंडारण स्टॉक के लिये, जो आवश्यक हों, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा।
6. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देशित बोटल/केन्स की धारिता में बीयर की आपूर्ति करेगा।
7. बोटलों पर लगाये गये लेबुलों पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली, 1969 में विहित सभी आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। लाइसेंसधारी सुरक्षा कोड हेतु गोदाम परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लागू करने के लिये उचित प्रबंध करेगा। बीयर के किसी भी बोटल/केन्स की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा न हो।
8. लाइसेंसधारी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और बीयर के आने वाले माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबंध करेगा। गोदाम में आई0पी0 एड्रेस रखने वाला कैमरा लगाया जायेगा और अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
9. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम में बीयर की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टॉक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में बीयर का सही-सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। बीयर की प्राप्ति व निकासी के पासों के पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मॉगने पर प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित विवरण का एम0आई0एस0 (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा।

शर्तें

10. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम से बीयर की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये सभी सामान्य नियमों द्वारा नियमतः उत्तरदायी होगा।
11. लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों के अनुसार ब्रांडो के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम थोक व अधिकतम फुटकर विक्री की दरें, एक्स ब्रांड मूल्य, ब्रांडो की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी किसी लेबुल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबुल धारितावार के अनुमोदन शुल्क के साथ ट्रेजरी चालान/ई-पेमेन्ट संलग्न करके सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उसके अनुमोदन के लिये आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा। अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न की जाये।
12. लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम-4 सन् 1910) और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन व इस लाइसेंस की शर्तों का पालन करेगा।
13. यदि लाइसेंस निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीकृत नहीं होता है तो लाइसेंसधारी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये बीयर के थोक स्टॉक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन बचे हुये स्टॉक का निस्तारण करेगा।
14. लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉंधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों में 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 बजे सायं तक खुला रहेगा। जिलाधिकारी सम्बन्धित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

शर्तें

10. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम से बीयर की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये सभी सामान्य नियमों द्वारा नियमतः उत्तरदायी होगा।
11. लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों के अनुसार ब्रांडो के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम थोक व अधिकतम फुटकर विक्री की दरें, एक्स ब्रांड मूल्य, ब्रांडो की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी किसी लेबुल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबुल धारितावार के अनुमोदन शुल्क के साथ ट्रेजरी चालान/ई-पेमेन्ट संलग्न करके सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उसके अनुमोदन के लिये आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा। अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न की जाये।
12. लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम-4 सन् 1910) और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन व इस लाइसेंस की शर्तों का पालन करेगा।
13. यदि लाइसेंस निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीकृत नहीं होता है तो लाइसेंसधारी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये बीयर के थोक स्टॉक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन बचे हुये स्टॉक का निस्तारण करेगा।
14. लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉंधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों में 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 बजे सायं तक खुला रहेगा। जिलाधिकारी सम्बन्धित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

शर्तें

15. जिलों के एफ0एल0-2 लाइसेंसधारी से बीयर की थोक आपूर्ति हेतु मॉग-पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी। ऐसा न करने पर लाइसेंसधारी दण्ड का भागी होगा।
16. बंधित गोदाम से निकासी होने वाले सभी ब्रान्डों की बोतलों/केन्स के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबुलों पर बिना अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य अंकित किये हुये बीयर की बिक्री प्रतिबन्धित है।
- 17- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।

लाइसेंस / शुल्क, प्रतिभूति
धनराशि का विवरण

बैंक/पोस्ट आफिस का नाम	डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान संख्या/ एफ0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत पत्र संख्या	दिनांक	धनराशि
------------------------------	---	--------	--------

दिनांक

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

शर्तें

15. जिलों के एफ0एल0-2बी लाइसेंसधारी से बीयर की थोक आपूर्ति हेतु मॉग-पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी। ऐसा न करने पर लाइसेंसधारी दण्ड का भागी होगा।
16. बंधित गोदाम से निकासी होने वाले सभी ब्रान्डों की बोतलों/केन्स के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबुलों पर बिना अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य अंकित किये हुये बीयर की बिक्री प्रतिबन्धित है।
- 17- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।
- 18- उत्तर प्रदेश में आयात की जाने वाली बीयर की पेटियों (कार्टन) की सभी छः सतहों (फेस) पर गाढ़े लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में "फार सेल इन यूपी" मुद्रित कराया जायेगा।

लाइसेंस / शुल्क, प्रतिभूति
धनराशि का विवरण

बैंक/पोस्ट आफिस का नाम	डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान संख्या/ एफ0डी0आर0/राष्ट्रीय य बचत पत्र संख्या	दिनांक	धनराशि
------------------------------	---	--------	--------

दिनांक

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

8-बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी प्रारूप का संशोधन—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान प्रारूप के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रारूप रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम
वाइन बंधित गोदाम
(बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी)

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
वाइन बंधित गोदाम
(बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी)

वाइन बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का लाइसेंस
लाइसेंस संख्या

[नियम (3)]

वाइन बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का लाइसेंस
लाइसेंस संख्या

[नियम (3)]

आवेदक का फोटो

आवेदक का फोटो

गोदाम का फोटो

गोदाम का फोटो

गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....

गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....

1—लाइसेंस संख्या.....

1—लाइसेंस संख्या.....

2—जिला.....

2—जिला.....

3—अनुज्ञापनधारी का नाम, पता एवं आधार संख्या.....

3—अनुज्ञापनधारी का नाम, पता एवं आधार संख्या.....

.....ने वाइन बंधित गोदाम-2सी के लिए लाइसेंस शुल्क रुपये(शब्दों में)..... तथा प्रतिभूति धनराशि रुपये (शब्दों में)का सरकारी कोषागार में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से या आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत राष्ट्रीय बचत पत्र /सावधि जमा रसीद के माध्यम से नीचे उल्लिखित ब्यौरे जमा किये जायेंगे। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निस्पादित किया है।

.....ने वाइन बंधित गोदाम-2सी के लिए लाइसेंस शुल्क रुपये(शब्दों में)..... तथा प्रतिभूति धनराशि रुपये (शब्दों में)का सरकारी कोषागार में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से या आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से नीचे उल्लिखित ब्यौरे जमा किये जायेंगे। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निस्पादित किया है।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रांत अधिनियम 4, सन् 1910) और तद्धीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन बोतल बन्द वाइन को उत्तर प्रदेश में बंधपत्र के अधीन आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान..... जिला..... जिसे आगे लाइसेंसप्राप्त परिसर कहा गया है, के लिये दिनांकसे प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 31 मार्च..... को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन जिनका लाइसेंसधारी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंसधारी अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, एतद्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है—

परिसर—स्वामी का नाम व पता.....

स्थान—.....ग्राम/मुहल्ला.....

थाना.....तहसील.....जनपद

उत्तरदक्षिण.....

पूर्वपश्चिम.....

शर्तें

1. उक्त बंधित गोदाम से वाइन की निकासी राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बंध-पत्र, या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ0एल0-2 लाइसेंसधारी को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के पश्चात् ही दी जायेगी।
2. उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित तीव्रता की ही वाइन की निकासी दी जायेगी।
3. बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी वाइन जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है।
4. लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रांडो की मांगो और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्रांडों के न्यूनतम स्टॉक को अनुरक्षित रखेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रांत अधिनियम 4, सन् 1910) और तद्धीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन बोतल बन्द वाइन को उत्तर प्रदेश में बंधपत्र के अधीन आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान..... जिला..... जिसे आगे लाइसेंसप्राप्त परिसर कहा गया है, के लिये दिनांकसे प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 31 मार्च..... को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन जिनका लाइसेंसधारी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंसधारी अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, एतद्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है—

परिसर—स्वामी का नाम व पता.....

स्थान—.....ग्राम/मुहल्ला.....

थाना.....तहसील.....जनपद

उत्तरदक्षिण.....

पूर्वपश्चिम.....

शर्तें

1. उक्त बंधित गोदाम से वाइन की निकासी राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बंध-पत्र, या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ0एल0-2 लाइसेंसधारी को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के पश्चात् ही दी जायेगी।
2. उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित तीव्रता की ही वाइन की निकासी दी जायेगी।
3. बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी वाइन जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है।
4. लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रांडो की मांगो और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्रांडों के न्यूनतम स्टॉक को अनुरक्षित रखेगा।

शर्तें

5. गोदाम में वाइन के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा। अनुज्ञापी रैको की पर्याप्त संख्या में आलमारियों, बक्सों और अन्य उपस्कर भंडारण स्टॉक के लिये, जो आवश्यक हों, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा।
6. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देशित बोटल/प्लास्क की धारिता में वाइन की आपूर्ति करेगा।
7. बोटलों पर लगाये गये लेबुलों पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली, 1969 में विहित सभी आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। लाइसेंसधारी सुरक्षा कोड के लिए गोदाम परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लागू करने के लिये उचित प्रबंध करेगा। वाइन की किसी भी बोटल की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा न हो।
8. लाइसेंसधारी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और वाइन के आने वाले माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबंध करेगा। गोदाम में आई0पी0 एड्रेस रखने वाले कैमरा सहित लगाया जायेगा और अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
9. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम में वाइन की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टॉक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में वाइन का सही-सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। वाइन की प्राप्ति व निकासी के पासों के पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मॉगने पर प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित विवरण का एम0आई0एस0 (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा।

शर्तें

5. गोदाम में वाइन के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा। अनुज्ञापी रैको की पर्याप्त संख्या में आलमारियों, बक्सों और अन्य उपस्कर भंडारण स्टॉक के लिये, जो आवश्यक हों, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा।
6. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देशित बोटल/प्लास्क /पात्र की धारिता में वाइन की आपूर्ति करेगा।
7. बोटलों पर लगाये गये लेबुलों पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली, 1969 में विहित सभी आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। लाइसेंसधारी सुरक्षा कोड के लिए गोदाम परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लागू करने के लिये उचित प्रबंध करेगा। वाइन की किसी भी बोटल की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा न हो।
8. लाइसेंसधारी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और वाइन के आने वाले माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबंध करेगा। गोदाम में आई0पी0 एड्रेस रखने वाले कैमरा सहित लगाया जायेगा और अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
9. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम में वाइन की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टॉक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में वाइन का सही-सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। वाइन की प्राप्ति व निकासी के पासों के पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मॉगने पर प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित विवरण का एम0आई0एस0 (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा।

शर्तें

10. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम से वाइन की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये सभी सामान्य नियमों द्वारा नियमित: उत्तरदायी होगा।
11. लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों के अनुसार ब्रांडो के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम थोक व अधिकतम फुटकर बिक्री की दरें, एक्स बांड मूल्य, ब्रांडो की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी किसी लेबुल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबुल धारितावार के अनुमोदन शुल्क के साथ ट्रेजरी चालान संलग्न करके सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उसके अनुमोदन के लिये आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा। अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न की जाये।
12. लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम-4 सन् 1910) और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन व इस लाइसेंस की शर्तों का पालन करेगा।
13. यदि लाइसेंस निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीकृत नहीं होता है तो लाइसेंसधारी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये वाइन के थोक स्टॉक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन बचे हुये स्टॉक का निस्तारण करेगा।
14. लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गान्धी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों में 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 बजे सायं तक खुला रहेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी/ जिलाधिकारी सम्बन्धित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

शर्तें

10. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम से वाइन की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये सभी सामान्य नियमों द्वारा नियमित: उत्तरदायी होगा।
11. लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों के अनुसार ब्रांडो के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम थोक व अधिकतम फुटकर बिक्री की दरें, एक्स बांड मूल्य, ब्रांडो की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी किसी लेबुल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबुल धारितावार के अनुमोदन शुल्क के साथ ट्रेजरी चालान संलग्न करके सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उसके अनुमोदन के लिये आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा। अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न की जाये।
12. लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम-4 सन् 1910) और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन व इस लाइसेंस की शर्तों का पालन करेगा।
13. यदि लाइसेंस निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीकृत नहीं होता है तो लाइसेंसधारी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये वाइन के थोक स्टॉक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन बचे हुये स्टॉक का निस्तारण करेगा।
14. लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गान्धी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों में 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 बजे सायं तक खुला रहेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी/ जिलाधिकारी सम्बन्धित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

शर्तें

15. जिलों के एफ0एल0-2 लाइसेंसधारी से वाइन की थोक आपूर्ति हेतु मॉग-पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी। ऐसा न करने पर लाइसेंसधारी दण्ड का भागी होगा।
16. बंधित गोदाम से निकासी होने वाले सभी ब्रांडों की बोतलों के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबुलों पर बिना अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य अंकित किये हुये वाइन की बिक्री प्रतिबन्धित है।
17. लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।

शर्तें

15. जिलों के एफ0एल0-2 लाइसेंसधारी से वाइन की थोक आपूर्ति हेतु मॉग-पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी। ऐसा न करने पर लाइसेंसधारी दण्ड का भागी होगा।
16. बंधित गोदाम से निकासी होने वाले सभी ब्रांडों की बोतलों के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबुलों पर बिना अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य अंकित किये हुये वाइन की बिक्री प्रतिबन्धित है।
17. लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।
18. उत्तर प्रदेश में आयात की जाने वाली वाइन की पेटियों (कार्टन) की सभी छः सतहों (फेस) पर गाढ़े लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में "फार सेल इन यूपी" मुद्रित कराया जायेगा।

**लाइसेंस / शुल्क, प्रतिभूति
धनराशि का विवरण**

बैंक/पोस्ट आफिस का नाम	डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान संख्या/ एफ0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत पत्र संख्या	दिनांक	धनराशि

दिनांक

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

**लाइसेंस/शुल्क, प्रतिभूति
धनराशि का विवरण**

बैंक/पोस्ट आफिस का नाम	डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान संख्या/ एफ0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत पत्र संख्या	दिनांक	धनराशि

दिनांक

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

9-बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी प्रारूप का संशोधन—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान प्रारूप के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रारूप रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

कम तीव्रता के मादक पेय बंधित गोदाम

(बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी)

कम तीव्रता के मादक पेय बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का लाइसेंस
लाइसेंस संख्या

[नियम-(3)]

आवेदक का फोटो

गोदाम का फोटो

गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....

1- लाइसेंस संख्या.....

2-जिला.....

3-लाइसेंसधारी का नाम, पता एवं आधार संख्या

.....

....

..... ने कम तीव्रता के मादक पेय बंधित गोदाम-2डी के लिए लाइसेंस शुल्क रुपये(शब्दों में)..... तथा प्रतिभूति धनराशि रुपये(शब्दों में) का सरकारी कोषागार में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से या आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत राष्ट्रीय बचत पत्र /सावधि जमा रसीद के माध्यम से नीचे यथा उल्लिखित विस्तृत विवरण जमा किया है। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निष्पादित किया है।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

कम तीव्रता के मादक पेय बंधित गोदाम

(बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी)

कम तीव्रता के मादक पेय बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का लाइसेंस
लाइसेंस संख्या

[नियम-(3)]

आवेदक का फोटो

गोदाम का फोटो

गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....

1- लाइसेंस संख्या.....

2-जिला.....

3-लाइसेंसधारी का नाम, पता एवं आधार संख्या

.....

.....

..... ने कम तीव्रता के मादक पेय बंधित गोदाम-2डी के लिए लाइसेंस शुल्क रुपये(शब्दों में)..... तथा प्रतिभूति धनराशि रुपये(शब्दों में) का सरकारी कोषागार में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से या आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से नीचे यथा उल्लिखित विस्तृत विवरण जमा किया है। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निष्पादित किया है।

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रांत अधिनियम 4 सन् 1910) और तदधीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन बोलत बन्द कम तीव्रता के मादक पेय को उत्तर प्रदेश में बंधपत्र के अधीन आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान.....जिला..... जिसे आगे लाइसेंस युक्त परिसर कहा गया है, के लिये दिनांक से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 31 मार्च..... को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अधधीन जिनका लाइसेंसधारी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंसधारी अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, एतद्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है—

परिसर—स्वामी का नाम व पता.....

स्थान—ग्राम/मुहल्ला.....थाना.....

तहसील.....जिला.....

सीमा उत्तर.....

दक्षिण.....

पूर्व.....

पश्चिम.....

शर्तें

1. उक्त बंधित गोदाम से कम तीव्रता के मादक पेय की निकासी, राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बंध-पत्र या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ0एल0-2 लाइसेंसधारी को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के पश्चात् ही दी जायेगी।
2. उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित तीव्रता की ही कम तीव्रता के मादक पेय की निकासी दी जायेगी।
3. बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी कम तीव्रता के मादक पेय जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रांत अधिनियम 4 सन् 1910) और तदधीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन बोलत बन्द कम तीव्रता के मादक पेय को उत्तर प्रदेश में बंधपत्र के अधीन आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान.....जिला..... जिसे आगे लाइसेंस युक्त परिसर कहा गया है, के लिये दिनांक से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 31 मार्च..... को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अधधीन जिनका लाइसेंसधारी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंसधारी अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, एतद्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है—

परिसर—स्वामी का नाम व पता.....

स्थान—ग्राम/मुहल्ला.....थाना.....

तहसील.....जिला.....

सीमा उत्तर.....

दक्षिण.....

पूर्व.....

पश्चिम.....

शर्तें

1. उक्त बंधित गोदाम से कम तीव्रता के मादक पेय की निकासी, राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बंध-पत्र या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ0एल0-2~~बी~~ लाइसेंसधारी को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के पश्चात् ही दी जायेगी।
2. उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित तीव्रता की ही कम तीव्रता के मादक पेय की निकासी दी जायेगी।
3. बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी कम तीव्रता के मादक पेय जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है।

शर्तें

4. लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रांडो की मांगों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्रांडों के न्यूनतम स्टॉक को अनुरक्षित रखेगा।
5. गोदाम में कम तीव्रता के मादक पेय के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा। लाइसेंसधारी रैंको की पर्याप्त संख्या में आलमारियों, बक्सों और अन्य उपस्कर भंडारण स्टॉक के लिये, जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा।
6. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देशित बोटल/फ्लास्क की धारिता में कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति करेगा।
7. बोटलों पर लगाये गये लेबुलों पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली, 1969 में विहित सभी आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। लाइसेंसधारी गोदाम के परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लागू करने हेतु उचित प्रबंध करेगा। कम तीव्रता के मादक पेय के किसी भी बोटल की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा न हो।
8. लाइसेंसधारी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और कम तीव्रता के मादक पेय के आने वाला माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबंध करेगा। गोदाम में आई0पी0 एड्रेस रखने वाले कैमरा लगाया जायेगा और अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
9. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम में कम तीव्रता के मादक पेय की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टॉक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में कम तीव्रता के मादक पेय का सही-सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। कम तीव्रता के मादक पेय की प्राप्ति व निकासी के पासों के पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मॉगने पर प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित विवरण का एम0आई0एस0 (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा।

शर्तें

4. लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रांडो की मांगों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्रांडों के न्यूनतम स्टॉक को अनुरक्षित रखेगा।
5. गोदाम में कम तीव्रता के मादक पेय के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा। लाइसेंसधारी रैंको की पर्याप्त संख्या में आलमारियों, बक्सों और अन्य उपस्कर भंडारण स्टॉक के लिये, जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा।
6. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देशित बोटल/फ्लास्क /कैन्स की धारिता में कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति करेगा।
7. बोटलों पर लगाये गये लेबुलों पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली, 1969 में विहित सभी आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। लाइसेंसधारी गोदाम के परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लागू करने हेतु उचित प्रबंध करेगा। कम तीव्रता के मादक पेय के किसी भी बोटल की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा न हो।
8. लाइसेंसधारी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और कम तीव्रता के मादक पेय के आने वाला माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबंध करेगा। गोदाम में आई0पी0 एड्रेस रखने वाले कैमरा लगाया जायेगा और अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
9. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम में कम तीव्रता के मादक पेय की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टॉक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में कम तीव्रता के मादक पेय का सही-सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। कम तीव्रता के मादक पेय की प्राप्ति व निकासी के पासों के पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मॉगने पर प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित विवरण का एम0आई0एस0 (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा।

शर्तें

10. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम से कम तीव्रता के मादक पेय की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये सभी सामान्य नियमों द्वारा नियमित: उत्तरदायी होगा।
11. लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों के अनुसार ब्रांडों के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम थोक व अधिकतम फुटकर विक्री की दरें, एक्स बांड मूल्य, ब्रांडों की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी किसी लेबुल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबुल धारितावार के अनुमोदन शुल्क के साथ ट्रेजरी चालान संलग्न करके सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उसके अनुमोदन के लिये आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा। अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न की जाये।
12. लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन व इस लाइसेंस की शर्तों का पालन करेगा।
13. यदि लाइसेंस निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीकृत नहीं होता है तो लाइसेंसधारी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये कम तीव्रता के मादक पेय के थोक स्टॉक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन बचे हुये स्टॉक का निस्तारण करेगा।
14. लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गोंधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों में 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 बजे सायं तक खुला रहेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी/जिलाधिकारी सम्बन्धित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

शर्तें

10. लाइसेंसधारी बंधित गोदाम से कम तीव्रता के मादक पेय की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये सभी सामान्य नियमों द्वारा नियमित: उत्तरदायी होगा।
11. लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों के अनुसार ब्रांडों के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम थोक व अधिकतम फुटकर विक्री की दरें, एक्स बांड मूल्य, ब्रांडों की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी किसी लेबुल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबुल धारितावार के अनुमोदन शुल्क के साथ ट्रेजरी चालान संलग्न करके सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उसके अनुमोदन के लिये आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा। अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न की जाये।
12. लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन व इस लाइसेंस की शर्तों का पालन करेगा।
13. यदि लाइसेंस निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीकृत नहीं होता है तो लाइसेंसधारी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये कम तीव्रता के मादक पेय के थोक स्टॉक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन बचे हुये स्टॉक का निस्तारण करेगा।
14. लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गोंधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों में 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 बजे सायं तक खुला रहेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी/जिलाधिकारी सम्बन्धित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

शर्तें

15. जिलों के एफ0एल0-2 लाइसेंसधारियों से कम तीव्रता के मादक पेय की थोक आपूर्ति हेतु माँग-पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी। ऐसा न करने पर लाइसेंसधारी दण्ड का भागी होगा।
16. बंधित गोदाम से निकासी होने वाले सभी ब्रांडों की बोतलों के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबुलों पर बिना अधिकतम फुटकर बिक्रय मूल्य अंकित किये हुये कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री प्रतिबन्धित है।
- 17- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।

शर्तें

15. जिलों के एफ0एल0-2बी लाइसेंसधारियों से कम तीव्रता के मादक पेय की थोक आपूर्ति हेतु माँग-पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी। ऐसा न करने पर लाइसेंसधारी दण्ड का भागी होगा।
16. बंधित गोदाम से निकासी होने वाले सभी ब्रांडों की बोतलों के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबुलों पर बिना अधिकतम फुटकर बिक्रय मूल्य अंकित किये हुये कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री प्रतिबन्धित है।
- 17- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।
- 18- उत्तर प्रदेश में आयात की जाने वाली कम तीव्रता के मादक पेय की पेटियों (कार्टन) की सभी छः सतहों (फेस) पर गाढ़े लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में "फार सेल इन यूपी" मुद्रित कराया जायेगा।

लाइसेंस / शुल्क, प्रतिभूति
धनराशि का विवरण

बैंक / पोस्ट आफिस का नाम	डिमांड ड्राफ्ट / ट्रेजरी चालान संख्या/ एफ0डी0आर0 / राष्ट्रीय बचत पत्र संख्या	दिनांक	धनराशि

दिनांक

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।लाइसेंस / शुल्क, प्रतिभूति
धनराशि का विवरण

बैंक / पोस्ट आफिस का नाम	डिमांड ड्राफ्ट / ट्रेजरी चालान संख्या/ एफ0डी0आर0 / राष्ट्रीय बचत पत्र संख्या	दिनांक	धनराशि

दिनांक

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

10-प्रपत्र एफ0 एल0-22 का संशोधन—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ एक में दिए गए विद्यमान प्रपत्र एफ0 एल0-22 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

प्रपत्र एफ0एल0-22

(विदेशी मदिरा बीयर/वाइन/कम तीव्रता
के मादक पेय के आयात का परमिट)
(नियम-5)

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

प्रपत्र एफ0एल0 -22

(विदेशी मदिरा बीयर/वाइन/कम तीव्रता
के मादक पेय के आयात का परमिट)
(नियम-5)

परमिट संख्या.....
..... दिनांक.....

विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय
के आयात परमिट संख्या.....

.....दिनांक..... के
अधीन विदेशी मदिरा /बीयर /वाइन/कम तीव्रता के
मादक पेय के आयात पेय के आयात के लिये अनुमति
एतद्वारा प्रदान की जाती है। जिसकी वैधता दिनांक.....
.....तक होगी।

विवरण निम्नवत् है—

1— प्रेषक का नाम व पता.....

2— परेषित का नाम व पता

3—विदेशी मदिरा /बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक
पेय के ब्राण्ड और श्रेणी तथा मात्रा का विवरण—

क्रम संख्या	ब्राण्ड व श्रेणी
1	2

4— उत्तर प्रदेश में प्रवेश बिन्दु का नाम व मार्ग.....

.....(जहाँ से परेषण गुजरेगा)

5— प्रति बोतल आयात पास शुल्क की धनराशि.....

6— कुल आयात पास शुल्क की धनराशि.....

7—आयात शुल्क के जमा विवरण का दिनांक व चालान
संख्या.....

कार्यालय की मुहर

जिलाधिकारी/जिला अधिकारी
जिला.....

टिप्पणी—पास की एक प्रति आवेदकर्ता को दे दी
जायेगी, दूसरी प्रति निर्यात करने वाले स्थान के मुख्य
राजस्व प्राधिकारी को भेज दी जायेगी तथा तीसरी
अभिलेखार्थ रखी जायेगी।

जो लागू न हो काट दिया जाय।

परमिट संख्या.....
..... दिनांक.....

विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक
पेय के आयात परमिट संख्या.....

.....दिनांक..... के
अधीन विदेशी मदिरा /बीयर /वाइन/कम तीव्रता के
मादक पेय के आयात पेय के आयात के लिये अनुमति
एतद्वारा प्रदान की जाती है। जिसकी वैधता दिनांक.....
.....तक होगी।

विवरण निम्नवत् है—

1— प्रेषक का नाम व पता.....

2— परेषित का नाम व पता

3—विदेशी मदिरा /बीयर/वाइन/कम तीव्रता के
मादक पेय के ब्राण्ड और श्रेणी तथा मात्रा का विवरण—

क्रम संख्या	ब्राण्ड व श्रेणी
1	2

4— उत्तर प्रदेश में प्रवेश बिन्दु का नाम व मार्ग.....

.....जहाँ से परेषण गुजरेगा)

5— प्रति बोतल आयात पास शुल्क की धनराशि.....

6— कुल आयात पास शुल्क की धनराशि.....

7—आयात शुल्क के जमा विवरण का दिनांक व चालान
संख्या.....

कार्यालय की मुहर

जिला आबकारी अधिकारी/
उप आबकारी आयुक्त
जिला/प्रभार.....

टिप्पणी—पास की एक प्रति आवेदकर्ता को दे दी
जायेगी, दूसरी प्रति निर्यात करने वाले स्थान के मुख्य
राजस्व प्राधिकारी को भेज दी जायेगी तथा तीसरी
अभिलेखार्थ रखी जायेगी।

जो लागू न हो काट दिया जाय।

पी0 गुरु प्रसाद,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ**No. 1820/X-License-40/BWFL-2/Rules/2020-2021***Prayagraj, dated: April 20, 2020***NOTIFICATION**

In exercise of the powers under section 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act. no. IV of 1910), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act. no. 1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government, makes the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Foreign Liquor Bonded Warehouses) Rules, 2011 for the grant of Licenses of Foreign Liquor Bonded Warehouse under clause(d) of section 18 of the said Act of 1910 on fixed License fee in supersession of all the previous rules published in this behalf to the extent of their inconsistency with these rules.

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENSES FOR FOREIGN LIQUOR BONDED WAREHOUSE) (SIXTH AMENDMENT) RULES, 2020

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Foreign Liquor Bonded Warehouse) (Sixth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendment of Rule 2—In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Foreign Liquor Bonded Warehouse Rules, 2011, hereinafter referred to as the said rules, for existing rule-2 set out in Column- I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely-

Column-I
(Existing rule)

2. Definition:

In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context—

(i) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;

(ii) "District Excise Officer" means an officer of the Excise Department not below the rank of an Assistant Excise Commissioner or an officer of the Revenue Department not below the rank of Sub-Divisional Magistrate, duly appointed and vested with the powers under clause (b) of sub-section (2) of section-10 of the Act.

(iii) "Excise Year" means the period of 12 months commencing from 1st day of April of a calendar year;

(iv) "Form" means form appended to these rules;

(iv) "Foreign Liquor" means Indian Made Foreign Liquor (IMFL), beer, wine and Low strength Alcoholic Beverages (LAB).

(vi) "Licensee" means a Distillery, Brewery, Vintinery or Bottling Unit of other State to whom a License in Form BWFL-2A, BWFL-2B, BWFL-2C & BWFL-2D has been granted for running a Bonded Warehouse of Foreign Liquor.

Column-II
(Rule as hereby substituted)

2. Definition:

In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context—

(i) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;

(ii) "District Excise Officer" means an officer of the Excise Department not below the rank of an Assistant Excise Commissioner or an officer of the Revenue Department not below the rank of Sub-Divisional Magistrate, duly appointed and vested with the powers under clause (b) of sub-section (2) of section-10 of the Act.

(iii) "Excise Year" means the period of 12 months commencing from 1st day of April of a calendar year;

(iv) "Form" means form appended to these rules;

(iv) "Foreign Liquor" means Indian Made Foreign Liquor (IMFL), beer, wine and Low strength Alcoholic Beverages (LAB).

(vi) "Licensee" means a Distillery, Brewery, Vintinery or Bottling Unit of other State to whom a License in Form BWFL-2A, BWFL-2B, BWFL-2C & BWFL-2D has been granted for running a Bonded Warehouse of Foreign Liquor.

Column-I
(Existing rule)

(vii) "Licensing Authority" means the Excise Commissioner.

(viii) "License fee" means the consideration for the grant of License for exclusive privilege of wholesale of Foreign Liquor under section-24A of the Act, which shall be paid through e-payment in Government Treasury by the licensee before the License is granted to him, on such rates as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, with the previous sanction of the State Government.

(ix) "Officer in-charge" means an officer of the Excise Department nominated by the Excise Commissioner not below the rank of Excise Inspector.

(x) "Security amount" means the amount fixed by the Excise Commissioner which is to be deposited through National Saving Certificate/Fixed deposit receipt pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment and shall be refundable after final settlement of Licenses under consideration of entire claims and dues of State Government.

(xi) "Consideration Fee" means a fee for foreign liquor, wine, beer and low alcoholic beverages as fixed by the State Government under section 30 of the Excise Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply.

(xii) "Additional Consideration Fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of foreign liquor, wine, beer and low alcoholic beverages to the next multiple of ten, which shall be payable at licenced bonded warehouse level and recoverable by the licensee of the bonded ware house from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery/Ex-Brewery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price.

(xiii) "Import permit fees" means fee imposed on foreign liquor, wine, beer and low alcoholic beverages imported from overseas or any state or union territory outside the Uttar Pradesh.

Column-II
(Rule as hereby substituted)

(vii) "Licensing Authority" means the Excise Commissioner.

(viii) "License fee" means the consideration for the grant of License for exclusive privilege of wholesale of Foreign Liquor under section-24A of the Act, which shall be paid through e-payment in Government Treasury by the licensee before the License is granted to him, on such rates as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, with the previous sanction of the State Government.

(ix) "Officer in-charge" means an officer of the Excise Department nominated by the Excise Commissioner not below the rank of Excise Inspector.

(x) "Security amount" means the amount fixed by the Excise Commissioner which is to be deposited through **Fixed Deposit Receipt** pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment and shall be refundable after final settlement of Licenses under consideration of entire claims and dues of State Government.

(xi) "Consideration Fee" means a fee for foreign liquor, wine, beer and low alcoholic beverages as fixed by the State Government under section 30 of the Excise Act, which shall be deposited in treasury by the licensee prior to supply.

(xii) "Additional Consideration Fee" means difference amount obtained as a result of rounding off the maximum retail price of foreign liquor, wine, beer and low alcoholic beverages to the next multiple of ten, which shall be payable at licenced bonded warehouse level and recoverable by the licensee of the bonded ware house from wholesale supplier in addition to Ex-Distillery/Ex-Brewery Price and which in turn could be recovered by wholesale supplier from retail licensee in addition to maximum wholesale price.

(xiii) "Import permit fees" means fee imposed on foreign liquor, wine, beer and low alcoholic beverages imported from overseas or any state or union territory outside the Uttar Pradesh.

3-- **Amendment of rule-3**--In the said rules, for existing rule 3 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely-

Column-I
(Existing rule)

3. Grant of License--

(1) The Licenses for Foreign liquor bonded warehouse on a defined format of annexed (BWFL-2A, BWFL-2B, BWFL-2C and BWFL-2D) for issue of Foreign liquor in wholesale shall be granted by Excise Commissioner or an Officer authorized by him, not below the rank of Joint Excise Commissioner on payment of License fee, deposit of the security amount and execution of general bond in form BWFL-3 in favour of the Excise Commissioner.

(2) License for Foreign liquor Bonded warehouse for wholesale of Foreign liquor, beer, wine and low strength alcoholic beverages shall be given to the licensed distilleries, Brewery, Vintineries of other State. License holder of the bottling plant of other state shall also be eligible for the license provided bottling unit of such license holder fulfills the following criteria-

- (I) Bottling unit has annual turnover of business income (including revenue/excise duty) not less than Rs. 150 Crore.
- (II) Annual production capacity of bottling unit not less than five lakh cases.
- (III) Bottling unit has its business at least in three states with minimum one Crore population.
- (3) Application for grant of license shall be made in the Form BWFL-1. If any out of state unit desires to obtain bond licenses in various districts, then it can be done by single application. That unit will charge separate license fee for every district / license.
- (4) Security amount shall be prescribed by the Excise Commissioner with the prior approval of the State Government, which shall be in the form of National Saving Certificate/Fixed deposit receipt pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment.

Column-II
(Rule as hereby substituted)

3. Grant of License--

(1) The Licenses for Foreign liquor bonded warehouse on a defined format of annexed (BWFL-2A, BWFL-2B, BWFL-2C and BWFL-2D) for issue of Foreign liquor in wholesale shall be granted/**renewed** by Excise Commissioner or an Officer authorized by him, not below the rank of Joint Excise Commissioner on payment of License fee, deposit of the security amount and execution of general bond in form BWFL-3 in favour of the Excise Commissioner.

(2) License for Foreign liquor Bonded warehouse for wholesale of Foreign liquor, beer, wine and low strength alcoholic beverages shall be given to the licensed Distilleries, Brewery, Vintineries of other State. License holder of the bottling plant of other state shall also be eligible for the license provided bottling unit of such license holder fulfills the following criteria-

- (I) Bottling unit has annual turnover of business income (including revenue/ excise duty) **not less than Rs. 100 Crore.**
- (II) Annual production capacity of bottling unit not less than five lakh cases.
- (III) Bottling unit has its business at least in three states with minimum one Crore population.
- (3) Application for grant of license shall be made in the Form BWFL-1. If any out of **State** unit desires to obtain bond licenses in various districts, then it can be done by single application. That unit will be charged separate license fee for every district / license.
- (4) Security amount shall be prescribed by the Excise Commissioner with the prior approval of the State Government, which shall be in the form of **Fixed Deposit Receipt** pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment.

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
<p>(5) License fee shall be deposited by the licensee through e-payment in Government Treasury or by Bank-draft issued by a Nationalized Bank payable to Excise Commissioner.</p> <p>(6) The period of license shall be for an excise year or part thereof for which the license has been granted.</p> <p>(7) The license shall not be permitted to transfer or sublet the license to any other person.</p> <p>(8) Any out of state unit having multiple units in other states, desirous of selling IMFL/ Beer /Wine/LAB manufactured in its different units from same premises after obtaining bond licenses in Uttar Pradesh, may be allowed so after charging prescribed license fee for every unit provided that consignment from various units shall be stored separately in that premises.</p>	<p>(5) License fee shall be deposited by the licensee through e-payment in Government Treasury or by Bank-draft issued by a Nationalized Bank payable to Excise Commissioner.</p> <p>(6) The period of license shall be for an excise year or part thereof for which the license has been granted.</p> <p>(7) The license shall not be permitted to transfer or sublet the license to any other person.</p> <p>(8) Any out of state unit having multiple units in other states, desirous of selling IMFL/ Beer/Wine/LAB manufactured in its different units including FL-1 and FL-1A from a master warehouse same premises after obtaining bond licenses in Uttar Pradesh, may be allowed so after charging prescribed license fee for every unit: "Provided that consignment from various units shall be stored separately in that premises; Provided further that any wholesale licensee holding license in Form FL-2 and FL-2B may procure supply of different brands of Indian made foreign liquor /Beer/Wine/Low Strength Alcoholic Beverage under a single indent from such a master warehouse. License in Form BWFL-2A, BWFL-2B, BWFL-2C and BWFL-2D may be renewed by Excise Commissioner or an officer authorized by him, subject to the terms and conditions prescribed by the State Government.</p> <p>(9) In case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate shall be acceptable till it is not refunded.</p>

4-- **Amendment of rule-5**--In the said rules, for existing rule-5 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely-

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
<p>How to obtain Foreign liquor-</p> <p>Foreign liquor, beer, wine and low strength alcoholic beverages may be obtained by license holder of bond from his own Distillery, Brewery, Ventinery or Bonded Warehouse outside Uttar Pradesh on a permit in define format of annexed FL-22 Form issued by the Collector belonging to the district of license holder under rules.</p>	<p>How to obtain Foreign liquor-</p> <p>Foreign liquor, beer, wine and low strength alcoholic beverages may be obtained by license holder of bond from his own Distillery, Brewery, Ventinery or Bonded Warehouse outside Uttar Pradesh on a permit in define format of annexed FL-22 Form issued by the District Excise Officer or Deputy Excise Commissioner, Charge belonging to the district/ charge of license holder under rules.</p>

5-- Amendment of rule-16--In the said rules, for existing rule-16 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely-

Column-I
(Existing rule)

16. Suspension, Cancellation and Penalties

(1) Licensing Authority may suspend or cancel the license and forfeit the security money and imposed fine,-

(a) if any bottle or container of liquor which does not carry security code as approved by the Excise Department, is found to be sold from the licensed premises.

(b) if any other kind of liquor or intoxicating drug for which license is not granted, is found in the licensed premises.

(c) if licensee charges from wholesaler more than the ex-bond price declared at the time of brand registration before the Excise Commissioner, except consideration fee and other taxes and duties if any.

(d) if any unauthorized security code equipment, spirit, colour, essence etc. is found in the licensed premises.

(e) if licensee has made incorrect or fraudulent entries in records which resulted in loss of revenue.

(f) if any liquor or intoxicating drug is found in the possession of the licensee against the provision of the Act or rules.

(g) if licensee fails to supply the liquor within 48 hours of the receipt of the indent for supply of same alongwith price including taxes if any.

(h) if the licensee violates any condition of the licence form.

(i) If any Adulteration with water or any other substance/dilution of liquor mixing of low category liquor with high category liquor is found in licenced premises. Action under other relevant provisions of law shall also be taken.

(2) In case irregularities mentioned in sub-clause (1) are found, the Licensing Authority shall immediately suspend the license and issue a show cause notice for cancellation of license and forfeiture of security amount. The licensee shall submit his explanation within 7 days of the receipt of notice. Thereafter the Licensing Authority shall pass suitable orders as he deems fit.

(3) The Licensing Authority shall also recover the loss of excise revenue caused due to incorrect entries or irregularities committed by the Licensee or his salesman from the licensee after adopting the procedure of sub-rule(2).

Column-II

(Rule as hereby substituted)

16. Suspension, Cancellation and Penalties

(1) Licensing Authority may suspend or cancel the license and forfeit the security money and imposed fine,-

(a) if any bottle or container of liquor which does not carry security code as approved by the Excise Department, is found to be sold from the licensed premises.

(b) if any other kind of liquor or intoxicating drug for which license is not granted, is found in the licensed premises.

(c) if licensee charges from wholesaler more than the ex-bond price declared at the time of brand registration before the Excise Commissioner, except consideration fee and other taxes and duties if any.

(d) if any unauthorized security code equipment, spirit, colour, essence etc. is found in the licensed premises.

(e) if licensee has made incorrect or fraudulent entries in records which resulted in loss of revenue.

(f) if any liquor or intoxicating drug is found in the possession of the licensee against the provision of the Act or rules.

(g) if licensee fails to supply the liquor within 48 hours of the receipt of the indent for supply of same alongwith price including taxes if any.

(h) if the licensee violates any condition of the licence form.

(i) If any Adulteration with water or any other substance/dilution of liquor mixing of low category liquor with high category liquor is found in licensed premises. Action under other relevant provisions of law shall also be taken.

(2) In case irregularities mentioned in sub-clause (1) are found, the Licensing Authority shall immediately suspend the license and issue a show cause notice for cancellation of license and forfeiture of security amount. The licensee shall submit his explanation within 7 days of the receipt of notice. Thereafter the Licensing Authority shall pass suitable orders as he deems fit.

(3) The Licensing Authority shall also recover the loss of excise revenue caused due to incorrect entries or irregularities committed by the Licensee or his salesman from the licensee after adopting the procedure of sub-rule(2).

Column-I
(Existing rule)

(4) In case of compoundable breaches at bond licenses, minimum compounding fee shall be imposed as follows-

Sl. no.	Type of violation	For first time (in Rs.)	For second time (in Rs.)	For third time (in Rs.)
1	2	3	4	5
1	Providing inducement to retail licensee for increasing sale.	10000	20000	50000
2	Stock not found according to account.	20000	30000	50000
3	Proper indent register not maintained.	10000	20000	50000
4	Not putting up board out side licenced premise. Necessary information not written on the board.	10000	15000	20000
5	Proper arrangement of CCTV not found or CCTV not functioning	10000	20000	30000
6	Inability to supply in prescribed time period.	20000	40000	50000
7	Minimum assessed stock not found.	20000	30000	50000
8	Inability to produce licence.	5000	10000	30000
9	Operation of licence by unauthorized sales man.	5000	10000	20000

Column-II
(Rule as hereby substituted)

(4) In case of compoundable breaches at bond licenses, minimum compounding fee shall be imposed as follows-

Sl. no.	Type of violation	For first time (in Rs.)	For second time (in Rs.)	For third time (in Rs.)
1	2	3	4	5
1	Providing inducement to retail licensee for increasing sale.	10000	20000	50000
2	Stock not found according to account.	20000	30000	50000
3	Proper indent register not maintained.	10000	20000	50000
4	Not putting up board out side licenced premise. Necessary information not written on the board.	10000	15000	20000
5	Proper arrangement of CCTV not found or CCTV not functioning	10000	20000	30000
6	Inability to supply in prescribed time period.	20000	40000	50000
7	Minimum assessed stock not found.	20000	30000	50000
8	Inability to produce licence.	5000	10000	30000
9	Operation of licence by unauthorized sales man.	5000	10000	20000

1	2	3	4	5
10	Proper arrangement of cleanliness not found.	5000	10000	15000
11	Premises not found approved.	10000	25000	50000
12	Extension of premises without permission.	10000	20000	30000
13	Not sending retail shop wise monthly supply report in brand wise, capacity wise, strength wise and packaging wise.	10000	20000	50000

1	2	3	4	5
10	Proper arrangement of cleanliness not found.	5000	10000	15000
11	Premises not found approved.	10000	25000	50000
12	Extension of premises without permission.	10000	20000	30000
13	Not sending retail shop wise monthly supply report in brand wise, capacity wise, strength wise and packaging wise.	10000	20000	50000
14	If stock register is not produced when asked for	20000	25000	30000
15	If stock register is found incomplete	10000	15000	20000
16	If liquor issued to any one particular shop is found in another shop due to bonafide reasons.	25000	50000	Proceeding of Cancellation of license.
17	Any other irregularity, which is not mentioned under serial-01 to 16.	2000	5000	10000

In case of compoundable irregularities, officers of the rank of Deputy Excise Commissioner and above shall be entitled to compound the irregularity and accept the compounding fees.

In case of compoundable irregularities, officers of the rank of Deputy Excise Commissioner and above shall be entitled to compound the irregularity and accept the compounding fees.

6-- **Amendment of Format (B.W.F.L.-2A)**--In the said rules, for existing format B.W.F.L.-2A set out in Column I below, the format as set out in Column II shall be substituted, namely-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
FOREIGN LIQUOR BONDED WAREHOUSE (BWFL-2A)	FOREIGN LIQUOR BONDED WAREHOUSE (BWFL-2A)
Licence to establish and run a Foreign Liquor Bonded Warehouse.	Licence to establish and run a Foreign Liquor Bonded Warehouse.
Licence No.....	Licence No.....
[Rule-(3)]	[Rule-(3)]
Photo of Applicant	Photo of Applicant
Photo of warehouse	Photo of warehouse
Latitude /Longitude of Warehouse.....	Latitude /Longitude of Warehouse.....
1--Licence Number.....	4--Licence Number.....
2--District.....	5--District.....
3--Name, address and aadhar number of Licencee.....	6--Name, address and aadhar number of Licencee.....
.....
.....
has deposited the licence fee Rs.....for BWFL-2A and security amount of Rs. in the government treasury preferably through e-payment or National Saving Certificate/Fixed deposit receipt pledged in favour of Excise Commissioner Uttar Pradesh as detail mentioned below. He has also executed a general bond.	has deposited the licence fee Rs.....for BWFL-2A and security amount of Rs. in the government treasury preferably through e- payment or Fixed Deposit Receipt pledged in favour of Excise Commissioner Uttar Pradesh as detail mentioned below. He has also executed a general bond.

Licence is hereby, granted under and subject to provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under to

.....(hereinafter referred to as licensee) authorizing him to import under bond, store and sell of sealed bottles of foreign liquor in U.P. at place.....in the district.....(hereinafter called the licensed premises) during the period commencing ofending on 31st March.....(both days inclusive) subject to the following conditions, the infringement of which either by the licensee or any person employed by him may entail imposition of penalty on the licensee, forfeiture of security and cancellation of licence.

Premises: Name & Address of owner -----

Place-village/mohalla-----

P.S.....

Tehsil.....

District.....

Boundary- North.....

South.....

East.....

West.....

Column-I
(Existing rule)

CONDITIONS

- 1- Issue of foreign liquor from the said Bonded Warehouse shall be made to any other bonded warehouse of the State under bond or to any wholesaler FL-2 licensee of State on prepayment of consideration fee and other charges.
- 2- Issue of foreign liquor from the said Bonded Warehouse shall be made at such strength only as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.

Licence is hereby, granted under and subject to provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under to

..... (hereinafter referred to as licensee) authorizing him to import under bond, store and sell of sealed bottles/**cans/tetra packs** of foreign liquor in U.P. at place.....in the district.....(hereinafter called the licensed premises) during the period commencing of ending on 31st March.....(both days inclusive) subject to the following conditions, the infringement of which either by the licensee or any person employed by him may entail imposition of penalty on the licensee, forfeiture of security and cancellation of licence.

Premises: Name & Address of owner -----

Place-village/mohalla-----

P.S.....

Tehsil.....

District.....

Boundary- North.....

South.....

East.....

West.....

Column-II
(Rule as hereby substituted)

CONDITIONS

- 1- Issue of foreign liquor from the said Bonded Warehouse shall be made to any other bonded warehouse of the State under bond or to any wholesaler FL-2 licensee of State on prepayment of consideration fee and other charges.
- 2- Issue of foreign liquor from the said Bonded Warehouse shall be made at such strength only as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.

Column-I
(Existing rule)

CONDITIONS

- 3- The Officer In-charge of the Bonded Warehouse is empowered to stop with the prior sanction of the Deputy Excise Commissioner of the charge concerned, pending the orders of the Excise Commissioner, the issues of foreign liquor which he considers doubtful for consumption and is required to send samples of such foreign liquor for analysis without delay.
- 4- The licensee shall maintain such minimum stock of such brand at the warehouse keeping in view the demands and requirements of the particular brands by the wholesale vendors.
- 5- The licensee shall be responsible for the proper upkeep and storage of foreign liquor at the Warehouse. The licensee shall provide adequate number of racks, almirahs, boxes and other equipments as may be necessary for storing stocks and may also put his own lock thereon along with the lock of officer in-charge.
- 6- The licensee shall supply foreign liquor in bottles/flasks of capacities as may be determined by Excise Commissioner from time to time.
- 7- The labels affixed to the bottles shall contain all essential printed requirements prescribed in the U.P. Bottling of Foreign Liquor Rules, 1969 as amended from time to time. The licensee shall make proper arrangement for applying the security code as approved by the Excise Department in the bond premises. No bottles/tetra pack of liquor shall be sold on which the security code approved by the Excise Department is not affixed.
- 8- The licensee shall be required to post his authorized Agent duly approved by the Deputy Excise Commissioner of the charge and shall arrange for the loading and unloading of the incoming consignments of foreign liquor and issues from the Bonded Warehouse. The warehouse shall be fitted with a camera having a I.P. address and should be equipped with fire fighting equipments.

Column-II
(Rule as hereby substituted)

CONDITIONS

- 3- The Officer In-charge of the Bonded Warehouse is empowered to stop with the prior sanction of the Deputy Excise Commissioner of the charge concerned, pending the orders of the Excise Commissioner, the issues of foreign liquor which he considers doubtful for consumption and is required to send samples of such foreign liquor for analysis without delay.
- 4- The licensee shall maintain such minimum stock of such brand at the warehouse keeping in view the demands and requirements of the particular brands by the wholesale vendors.
- 5- The licensee shall be responsible for the proper upkeep and storage of foreign liquor at the Warehouse. The licensee shall provide adequate number of racks, almirahs, boxes and other equipments as may be necessary for storing stocks and may also put his own lock thereon along with the lock of officer in-charge.
- 6- The licensee shall supply foreign liquor in bottles/flasks/**cans/tetrapacks** of capacities as may be determined by Excise Commissioner from time to time.
- 7- The labels affixed to the bottles shall contain all essential printed requirements prescribed in the U.P. Bottling of Foreign Liquor Rules, 1969 as amended from time to time. The licensee shall make proper arrangement for applying the security code as approved by the Excise Department in the bond premises. No bottles/tetra packs of liquor shall be sold on which the security code approved by the Excise Department is not affixed
- 8- The licensee shall be required to post his authorized Agent duly approved by the Deputy Excise Commissioner of the charge and shall arrange for the loading and unloading of the incoming consignments of foreign liquor and issues from the Bonded Warehouse. The warehouse shall be fitted with a camera having a I.P. address and should be equipped with fire fighting equipments.

Column-I
(Existing rule)

CONDITIONS

- 9- The licensee shall keep a true and correct account of the quantity of foreign liquor received, issued and held in balance at such bonded warehouse. The account shall be correctly maintained up to date daily in a register in prescribed form. Pages of the Account Register shall be numbered and sealed with a rubber seal of concerned District Excise Officer. Pages and counterfoils of the passes covering the receipt and issues of foreign liquor shall be properly kept and shall at all times be open to inspection by the authorities of Excise Department. MIS Management Information System) of related details shall be uploaded on the prescribed portal at regular intervals.
- 10- Licensee shall be bound by all the general rules for the management of the Bonded Warehouse and for issues of foreign liquor there from
- 11- Licensee shall furnish to the Excise Commissioner an exhaustive list of brands ex-bond price, maximum wholesale and maximum retail rates for approval along with registration fee for brands registration as directed by the Excise Commissioner from time to time. Licensee shall also before bringing any label into use, submit exact copies thereof in quadruplet every year with the treasury challan of approved fee of every label capacity wise as prescribed by the Excise Commissioner from time to time to the District Excise Officer of the concerned district who will forward them to the Excise Commissioner for his approval. No change in the MRP shall be allowed during the year of operation unless especially permitted by the Excise Commissioner.
- 12- On all the six faces of the cartons of foreign liquor to be imported in Uttar Pradesh, "For Sale in U.P." shall be printed in the minimum size of one inch black letters on a red strip of one and a half inch broad.
- 13- The licensee shall abide by the conditions of this licence and provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under.

Column-II
(Rule as hereby substituted)

CONDITIONS

- 9- The licensee shall keep a true and correct account of the quantity of foreign liquor received, issued and held in balance at such bonded warehouse. The account shall be correctly maintained up to date daily in a register in prescribed form. Pages of the Account Register shall be numbered and sealed with a rubber seal of concerned District Excise Officer. Pages and counterfoils of the passes covering the receipt and issues of foreign liquor shall be properly kept and shall at all times be open to inspection by the authorities of Excise Department. MIS Management Information System) of related details shall be uploaded on the prescribed portal at regular intervals.
- 10- Licensee shall be bound by all the general rules for the management of the Bonded Warehouse and for issues of foreign liquor there from.
- 11- Licensee shall furnish to the Excise Commissioner an exhaustive list of brands ex-bond price, maximum wholesale and maximum retail rates for approval along with registration fee for brands registration as directed by the Excise Commissioner from time to time. Licensee shall also before bringing any label into use, submit exact copies thereof in quadruplet every year with the treasury challan of approved fee of every label capacity wise as prescribed by the Excise Commissioner from time to time to the District Excise Officer of the concerned district who will forward them to the Excise Commissioner for his approval. No change in the MRP shall be allowed during the year of operation unless especially permitted by the Excise Commissioner.
- 12- On all the six faces of the cartons of foreign liquor to be imported in Uttar Pradesh, "For Sale in U.P." shall be printed in the minimum size of one inch black letters on a red strip of one and a half inch broad.
- 13- The licensee shall abide by the conditions of this licence and provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under.

Column-I
(Existing rule)

CONDITIONS

- 14- In case the licence is cancelled during the currency of the period of licence or is not renewed on its expiry, the licensee shall forthwith intimate the whole stock of foreign liquor held in balance at the Bonded Warehouse to the Officer In-charge and dispose off the balance stock only under directions given by the Excise Commissioner.
- 15- The license premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm by evening, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified by the Collector. The Licensing Authority/ Collector may also order for closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/ days.
- 16- On receiving demand for wholesale supply of foreign liquor from FI-2 licensees of the districts , the supply may be ensured on the principle of "first come and first served " failing which penal action may be taken against the licensees.
- 17- The labels affixed to the bottles shall carry the maximum retail price fixed for every brand of liquors issued from the bond. Without printed M.R.P. on the labels no sale is allowed.
- 18- Licensee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code on them .

(Details of License fee/Security Amount)

Name of Bank/Post office.	DD No./ Treasury challan/ FDR /NSC. NO	Dated	Amount

Date

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh

Column-II
(Rule as hereby substituted)

CONDITIONS

- 14- In case the licence is cancelled during the currency of the period of licence or is not renewed on its expiry, the licensee shall forthwith intimate the whole stock of foreign liquor held in balance at the Bonded Warehouse to the Officer In-charge and dispose off the balance stock only under directions given by the Excise Commissioner.
- 15- The license premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm by evening, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified by the Collector. The Licensing Authority/ Collector may also order for closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/ days.
- 16- On receiving demand for wholesale supply of foreign liquor from FI-2 licensees of the districts , the supply may be ensured on the principle of "first come and first served " failing which penal action may be taken against the licensees.
- 17- The labels affixed to the bottles shall carry the maximum retail price fixed for every brand of liquors issued from the bond. Without printed M.R.P. on the labels no sale is allowed.
- 18- Licensee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code on them .

(Details of License fee/Security Amount)

Name of Bank	DD No./ Treasury challan/ FDR NO	Dated	Amount

Date

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh

7--Amendment of Format (B.W.F.L.-2B)--In the said rules, for existing format B.W.F.L.-2B set out in Column I below, the format as setout in Column II shall be substituted, namely-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
BEERBONDED WAREHOUSE (BWFL-2B)	BEERBONDED WAREHOUSE (BWFL-2B)
Licence to establish and run a Beer Bonded Warehouse.	Licence to establish and run a Beer Bonded Warehouse.
Licence No.....	Licence No.....
[Rule-(3)]	[Rule-(3)]
Photo of Applicant	Photo of Applicant
Photo of warehouse	Photo of warehouse
Latitude /Longitude of Warehouse.....	Latitude /Longitude of Warehouse.....
1- Licence Number.....	4- Licence Number.....
2- District.....	5- District.....
3- Name, address and aadhar number of Licencee.....	6- Name, address and aadhar number of Licencee.....
.....
.....
has deposited the licence fee Rs.....for BWFL-2B and security amount of Rs.in the government treasury preferably through e-payment or National Saving Certificate/Fixed deposit receipt pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh as detail mention below. He has also executed a general bond.	has deposited the licence fee Rs.....for BWFL-2B and security amount of Rs.in the government treasury preferably through e-payment or Fixed Deposit Receipt pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh as detail mentioned below. He has also executed a general bond.

Column-I
(Existing rule)

Licence is hereby, granted under and subject to provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P.Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under to (hereinafter referred to as licensee) authorising him to import under bond, store and sell of sealed bottles/ cans of beer in U.P. at place..... in the district..... (hereinafter called the licensed premises) during the period commencing of ending on 31st March.....(both days inclusive) subject to the following conditions, the infringement of which either by the licensee or any person employed by him may entail imposition of penalty on the licensee, forfeiture of security and cancellation of licence.

Premises: Name & Address of owner

.....

Place-village/mohalla

.P.S.....

Tehsil.....

District.....

Boundary:- North.....

South.....

East.....

West.....

Column-II
(Rule as hereby substituted)

Licence is hereby, granted under and subject to provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P.Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under to(hereinafter referred to as licensee) authorising him to import under bond, store and sell of sealed bottles/cans of beer in U.P. at place.....in the district.....(hereinafter called the licensed premises) during the period commencing of ending on 31st March..... (both days inclusive) subject to the following conditions, the infringement of which either by the licensee or any person employed by him may entail imposition of penalty on the licensee, forfeiture of security and cancellation of licence.

Premises: Name & Address of owner

.....

Place-village/mohalla

.P.S.....

Tehsil.....

District.....

Boundary:- North.....

South.....

East.....

West.....

Column-I
(Existing rule)

CONDITIONS

1. Issue of beer from the said Bonded Warehouse shall be made to any other bonded warehouse of the State under bond or to any wholesaler FL-2/FL-2B licensee of State on prepayment of consideration fee and other charges.

2. Issue of beer from the said Bonded Warehouse shall be made at such strength only (5 vv to 8vv) as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh

3. The Officer Incharge of the Bonded Warehouse is empowered to stop with the prior sanction of the Deputy Excise Commissioner of the charge concerned, pending the orders of the Excise Commissioner, the issues of beer which he considers doubtful for consumption and is required to send samples of such beer for analysis without delay.

4. The licensee shall maintain such minimum stock of such brand at the warehouse keeping in view the demands and requirements of the particular brands by the wholesale vendors.

5. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and storage of beer at the Warehouse. The licensee shall provide adequate number of racks, almirahs, boxes and other equipments as may be necessary for storing stocks and may also put his own lock thereon along with the lock of officer in-charge.

6. The licensee shall supply beer in bottles/cans of capacities as may be determined by Excise Commissioner from time to time.

7. The labels affixed to the bottles shall contain all essential printed requirements prescribed in the U.P. Bottling of beer Rules, 1969 as amended from time to time. For security code the licensee shall make proper arrangement for applying the security code as approved by the Excise Department in the bond premises. No bottles/cans of beer shall be sold on which the security code approved by the Excise Department is not affixed.

8. The licensee shall be required to post his authorized Agent duly approved by the Deputy Excise Commissioner of the charge and shall arrange for the loading and unloading of the incoming consignments of beer and issues from the Bonded Warehouse. The warehouse shall be fitted with a camera having an I.P. address. The warehouse should be equipped with fire fighting equipments.

Column-II
(Rule as hereby substituted)

CONDITIONS

1. Issue of beer from the said Bonded Warehouse shall be made to any other bonded warehouse of the State under bond or to any wholesaler FL-2B licensee of State on prepayment of consideration fee and other charges.

2. Issue of beer from the said Bonded Warehouse shall be made at such strength only (5 vv to 8vv) as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.

3. The Officer Incharge of the Bonded Warehouse is empowered to stop with the prior sanction of the Deputy Excise Commissioner of the charge concerned, pending the orders of the Excise Commissioner, the issues of beer which he considers doubtful for consumption and is required to send samples of such beer for analysis without delay.

4. The licensee shall maintain such minimum stock of such brand at the warehouse keeping in view the demands and requirements of the particular brands by the wholesale vendors.

5. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and storage of beer at the Warehouse. The licensee shall provide adequate number of racks, almirahs, boxes and other equipments as may be necessary for storing stocks and may also put his own lock thereon along with the lock of officer in-charge.

6. The licensee shall supply beer in bottles/cans of capacities as may be determined by Excise Commissioner from time to time.

7. The labels affixed to the bottles shall contain all essential printed requirements prescribed in the U.P. Bottling of beer Rules, 1969 as amended from time to time. For security code the licensee shall make proper arrangement for applying the security code as approved by the Excise Department in the bond premises. No bottles/cans of beer shall be sold on which the security code approved by the Excise Department is not affixed

8. The licensee shall be required to post his authorized Agent duly approved by the Deputy Excise Commissioner of the charge and shall arrange for the loading and unloading of the incoming consignments of beer and issues from the Bonded Warehouse. The warehouse shall be fitted with a camera having an I.P. address. The warehouse should be equipped with fire fighting equipments.

Column-I
(Existing rule)

CONDITIONS

9. The licensee shall keep a true and correct account of the quantity of beer received, issued and held in balance at such bonded warehouse. The account shall be correctly maintained upto date daily in a register in prescribed form. Pages of the Account Register shall be numbered and sealed with a rubber seal of concerned District Excise Officer. Pages and counterfoils of the passes covering the receipt and issues of beer shall be properly kept and shall at all times be open to inspection by the authorities of Excise Department. MIS (Management Information System) of related details shall be uploaded on the prescribed portal at fixed intervals.

10. Licensee shall be bound by all the general rules for the management of the Bonded Warehouse and for issues of beer there from.

11. Licensee shall furnish to the Excise Commissioner an exhaustive list of brands, ex-bond price, maximum wholesale and maximum retail rates for approval along with registration fee for brands registration as directed by the Excise Commissioner from time to time. Licensee shall also before bringing any label into use, submit exact copies thereof in quadruplet every year with the treasury challan/e-payment of approval fee of every label capacity wise as prescribed by the Excise Commissioner from time to time to the District Excise Officer of the concerned district who will forward them to the Excise Commissioner for his approval. No change in the MRP shall be allowed during the year of operation unless especially permitted by the Excise Commissioner.

12. The licensee shall abide by the conditions of this licence and provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under.

13. In case the licence is cancelled during the currency of the period of licence or is not renewed on its expiry, the licensee shall forthwith intimate the whole stock of beer held in balance at the Bonded Warehouse to the Officer In-charge and dispose off the balance stock only under directions given by the Excise Commissioner.

Column-II
(Rule as hereby substituted)

CONDITIONS

9. The licensee shall keep a true and correct account of the quantity of beer received, issued and held in balance at such bonded warehouse. The account shall be correctly maintained up to date daily in a register in prescribed form. Pages of the Account Register shall be numbered and sealed with a rubber seal of concerned District Excise Officer. Pages and counterfoils of the passes covering the receipt and issues of beer shall be properly kept and shall at all times be open to inspection by the authorities of Excise Department. MIS (Management Information System) of related details shall be uploaded on the prescribed portal at fixed intervals.

10. Licensee shall be bound by all the general rules for the management of the Bonded Warehouse and for issues of beer there from.

11. Licensee shall furnish to the Excise Commissioner an exhaustive list of brands, ex-bond price, maximum wholesale and maximum retail rates for approval along with registration fee for brands registration as directed by the Excise Commissioner from time to time. Licensee shall also before bringing any label into use, submit exact copies thereof in quadruplet every year with the treasury challan/e-payment of approval fee of every label capacity wise as prescribed by the Excise Commissioner from time to time to the District Excise Officer of the concerned district who will forward them to the Excise Commissioner for his approval. No change in the MRP shall be allowed during the year of operation unless especially permitted by the Excise Commissioner.

12. The licensee shall abide by the conditions of this licence and provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under.

13. In case the licence is cancelled during the currency of the period of licence or is not renewed on its expiry, the licensee shall forthwith intimate the whole stock of beer held in balance at the Bonded Warehouse to the Officer In-charge and dispose off the balance stock only under directions given by the Excise Commissioner.

Column-I
(Existing rule)

CONDITIONS

14. The license premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm by evening, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified by the Collector. The Licencing Authority/ Collector may also order for closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/ days.

15. On receiving demand for wholesale supply of beer from FI-2 licensees of the districts, the supply may be ensured on the principle of "first come and first served " failing which penal action may be taken against the licensees.

16. The labels affixed to the bottles/cans shall carry the maximum retail price fixed for every brand of liquors issued from the bond. Without printed M.R.P. on the labels no sale is allowed.

17. Licencee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code on them.

(Details of License fee/Security Amount)

Name of Bank/ Post office.	DD No./ Treasury challan/ FDR /NSC. NO	Dated	Amount

Date

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh

Column-II
(Rule as hereby substituted)

CONDITIONS

14. The license premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm by evening, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified by the Collector. The Licencing Authority/ Collector may also order for closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/ days.

15. On receiving demand for wholesale supply of beer from FI-2B licensees of the districts, the supply may be ensured on the principle of "first come and first served " failing which penal action may be taken against the licensees.

16. The labels affixed to the bottles/cans shall carry the maximum retail price fixed for every brand of liquors issued from the bond. Without printed M.R.P. on the labels no sale is allowed.

17. Licencee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code on them.

18. On all the six faces of the cartons of beer to be imported in Uttar Pradesh, "For Sale in U.P." shall be printed in the minimum size of one inch black letters on a red strip of one and a half inch broad.

(Details of License fee/Security Amount)

Name of Bank	DD No./ Treasury challan/ FDR NO	Dated	Amount

Date

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh

8-- **Amendment of Format (B.W.F.L.-2C)** --In the said rules, for existing format B.W.F.L.-2C set out in Column I below, the format as set out in Column II shall be substituted, namely-

Column-I
(Existing Format)

WINE BONDED WAREHOUSE
(BWFL-2C)
Licence to establish and run a Wine Bonded
Warehouse.
Licence No.....
[Rule-(3)]

Photo of Applicant

Photo of warehouse

Latitude /Longitude of Warehouse.....

- 1- Licence Number.....
- 2- District.....
- 3- Name, address and aadhar number of
Licencee...

.....
.....
has deposited the licence fee
Rs.....for BWFL-2C and security
amount of Rs.in government treasury
preferably through e-payment or National
Saving Certificate/Fixed deposit receipt pledged
in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh as
detail mentioned below. He has also executed a
general bond.

Licence is hereby, granted under and subject
to provisions of the United Provinces Excise Act,
1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and
orders made there under to
.....
(hereinafter referred to as licensee) authorising
him to import under bond, store and sell of sealed
bottles of wine in Uttar Pradesh at
place.....in the
district.....(hereinafter called the
licensed premises) during the period commencing
ofending on 31st
March.....(both days inclusive)
subject to the following conditions, the
infringement of which either by the licensee or any
person employed by him may entail imposition of
penalty on the licensee, forfeiture of security and
cancellation of licence.

Column-II
(Format as hereby substituted)

WINE BONDED WAREHOUSE
(BWFL-2C)
Licence to establish and run a Wine Bonded
Warehouse.
Licence No.....
[Rule-(3)]

Photo of Applicant

Photo of warehouse

Latitude /Longitude of Warehouse.....

- 1 Licence Number.....
- 2 District.....
- 3 Name, address and aadhar number of
Licencee.....

.....
.....
has deposited the licence fee
Rs.....for BWFL-2C and security
amount of Rs.in government treasury
preferably through e-payment or **Fixed Deposit
Receipt** pledged in favour of Excise commissioner
Uttar Pradesh as detail mentioned below. He has also
executed a general bond.

Licence is hereby, granted under and subject to
provisions of the United Provinces Excise Act, 1910
(U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders
made there under to
.....
(hereinafter referred to as licensee) authorising him
to import under bond, store and sell of sealed bottles
of wine in Uttar Pradesh at
place.....in the
district.....(hereinafter called the
licensed premises) during the period commencing of
.....ending on 31st
March.....(both days inclusive)
subject to the following conditions, the infringement
of which either by the licensee or any person
employed by him may entail imposition of penalty on
the licensee, forfeiture of security and cancellation of
licence.

Column-I (Existing Format)					Column-II (Format as hereby substituted)				
Premises:	Name	&	Address	of	Premises:	Name	&	Address	of
owner.....					owner.....				
Place-village/mohalla				Place-village/mohalla			
P.S.....					P.S.....				
Tehsil.....					Tehsil.....				
District.....					District.....				
Boundary:-					Boundary:-				
North.....					North.....				
South.....					South.....				
East.....					East.....				
West.....					West.....				

Column-I (Existing Format)					Column-II (Format as hereby substituted)				
CONDITIONS					CONDITIONS				
1. Issue of wine from the said Bonded Warehouse shall be made to any other bonded warehouse of the State under bond or to any wholesaler FL-2 licensee of State on prepayment of consideration fee and other charges.					1. Issue of wine from the said Bonded Warehouse shall be made to any other bonded warehouse of the State under bond or to any wholesaler FL-2 licensee of State on prepayment of consideration fee and other charges.				
2. Issue of wine from the said Bonded Warehouse shall be made at such strength only as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, U.P					2. Issue of wine from the said Bonded Warehouse shall be made at such strength only as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, U.P.				
3. The Officer In-charge of the Bonded Warehouse is empowered to stop with the prior sanction of the Deputy Excise Commissioner of the charge concerned, pending the orders of the Excise Commissioner, the issues of wine with he considers doubtful for consumption and is required to send samples of such wine for analysis without delay.					3. The Officer In-charge of the Bonded Warehouse is empowered to stop with the prior sanction of the Deputy Excise Commissioner of the charge concerned, pending the orders of the Excise Commissioner, the issues of wine with he considers doubtful for consumption and is required to send samples of such wine for analysis without delay.				
4. The licensee shall maintain such minimum stock of such brand at the warehouse keeping in view the demands and requirements of the particular brands by the wholesale vendors.					4. The licensee shall maintain such minimum stock of such brand at the warehouse keeping in view the demands and requirements of the particular brands by the wholesale vendors.				

Column-I
(Existing Format)
CONDITIONS

5. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and storage of wine at the Warehouse. The licensee shall provide adequate number of racks, almirahs, boxes and other equipments as may be necessary for storing stocks and may also put his own lock thereon along with the lock of officer in-charge.

6. The licensee shall supply wine in bottles/flasks of capacities as may be determined by Excise Commissioner from time to time.

7. The labels affixed to the bottles shall contain all essential printed requirements prescribed in the U.P. Bottling of wine Rules, 1969 as amended from time to time. For security code the licensee shall make proper arrangement for applying the security code as approved by the Excise Department in the bond premises. No bottles of wine shall be sold on which the security code approved by the Excise Department is not affixed.

8. The licensee shall be required to post his authorized Agent duly approved by the Deputy Excise Commissioner of the charge and shall arrange for the loading and unloading of the incoming consignments of wine and issues from the Bonded Warehouse. The warehouse shall be fitted with a camera having an I.P. address and should be equipped with fire fighting equipments.

9. The licensee shall keep a true and correct account of the quantity of wine received, issued and held in balance at such bonded warehouse. The account shall be correctly maintained up to date daily in a register in prescribed form. Pages of the Account Register shall be numbered and sealed with a rubber seal of concerned District Excise Officer. Pages and counterfoils of the passes covering the receipt and issues of wine shall be properly kept and shall at all times be open to inspection by the authorities of Excise Department. MIS (Management Information System) of related details shall be uploaded on the prescribed portal at fixed intervals.

Column-II
(Format as hereby substituted)
CONDITIONS

5. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and storage of wine at the Warehouse. The licensee shall provide adequate number of racks, almirahs, boxes and other equipments as may be necessary for storing stocks and may also put his own lock thereon along with the lock of officer in-charge.

6. The licensee shall supply wine in bottles/flasks/**container** of capacities as may be determined by Excise Commissioner from time to time.

7. The labels affixed to the bottles shall contain all essential printed requirements prescribed in the U.P. Bottling of wine Rules, 1969 as amended from time to time. For security code the licensee shall make proper arrangement for applying the security code as approved by the Excise Department in the bond premises. No bottles of wine shall be sold on which the security code approved by the Excise Department is not affixed.

8. The licensee shall be required to post his authorized Agent duly approved by the Deputy Excise Commissioner of the charge and shall arrange for the loading and unloading of the incoming consignments of wine and issues from the Bonded Warehouse. The warehouse shall be fitted with a camera having an I.P. address and should be equipped with fire fighting equipments.

9. The licensee shall keep a true and correct account of the quantity of wine received, issued and held in balance at such bonded warehouse. The account shall be correctly maintained up to date daily in a register in prescribed form. Pages of the Account Register shall be numbered and sealed with a rubber seal of concerned District Excise Officer. Pages and counterfoils of the passes covering the receipt and issues of wine shall be properly kept and shall at all times be open to inspection by the authorities of Excise Department. MIS (Management Information System) of related details shall be uploaded on the prescribed portal at fixed intervals.

Column-I <i>(Existing Format)</i> CONDITIONS	Column-II <i>(Format as hereby substituted)</i> CONDITIONS
<p>10. Licensee shall be bound by all the general rules for the management of the Bonded Warehouse and for issues of wine therefrom.</p>	<p>10. Licensee shall be bound by all the general rules for the management of the Bonded Warehouse and for issues of wine therefrom.</p>
<p>11. Licensee shall furnish to the Excise Commissioner an exhaustive list of brands ex-bond price, maximum wholesale and maximum retail rates for approval along with registration fee for brands registration as directed by the Excise Commissioner from time to time. Licensee shall also before bringing any label into use, submit exact copies thereof in quadruplet every year with the treasury challan of approval fee of every label capacity wise as prescribed by the Excise Commissioner from time to time to the District Excise Officer of the concerned district who will forward them to the Excise Commissioner for his approval . No change in the MRP shall be allowed during the year of operation unless especially permitted by the Excise Commissioner.</p>	<p>11. Licensee shall furnish to the Excise Commissioner an exhaustive list of brands ex-bond price, maximum wholesale and maximum retail rates for approval along with registration fee for brands registration as directed by the Excise Commissioner from time to time. Licensee shall also before bringing any label into use, submit exact copies thereof in quadruplet every year with the treasury challan of approval fee of every label capacity wise as prescribed by the Excise Commissioner from time to time to the District Excise Officer of the concerned district who will forward them to the Excise Commissioner for his approval . No change in the MRP shall be allowed during the year of operation unless especially permitted by the Excise Commissioner.</p>
<p>12. The licensee shall abide by the conditions of this licence and provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under.</p>	<p>12. The licensee shall abide by the conditions of this licence and provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under.</p>
<p>13. In case the licence is cancelled during the currency of the period of licence or is not renewed on its expiry, the licensee shall forthwith intimate the whole stock of wine held in balance at the Bonded Warehouse to the Officer In-charge and dispose off the balance stock only under directions given by the Excise Commissioner.</p>	<p>13. In case the licence is cancelled during the currency of the period of licence or is not renewed on its expiry, the licensee shall forthwith intimate the whole stock of wine held in balance at the Bonded Warehouse to the Officer In-charge and dispose off the balance stock only under directions given by the Excise Commissioner.</p>
<p>14. The license premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm by evening, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified by the Collector. The Licensing Authority/Collector may also order for closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/ days.</p>	<p>14. The license premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm by evening, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified by the Collector. The Licensing Authority/Collector may also order for closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/ days.</p>

Column-I
(Existing Format)

CONDITIONS

15. On receiving demand for wholesale supply of wine from FI-2 licensees of the districts, the supply may be ensured on the principle of "first come and first served " failing which penal action may be taken against the licensees.

16. The labels affixed to the bottles shall carry the maximum retail price fixed for every brand of liquors issued from the bond. Without printed M.R.P. on the labels no sale is allowed.

17. Licencee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code on them.

Column-II
(Format as hereby substituted)

CONDITIONS

15. On receiving demand for wholesale supply of wine from FI-2 licensees of the districts, the supply may be ensured on the principle of "first come and first served " failing which penal action may be taken against the licensees.

16. The labels affixed to the bottles shall carry the maximum retail price fixed for every brand of liquors issued from the bond. Without printed M.R.P. on the labels no sale is allowed.

17. Licencee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code affixed on them.

18. On all the six faces of the cartons of wine to be imported in Uttar Pradesh, "For Sale in U.P." shall be printed in the minimum size of one inch black letters on a red strip of one and a half inch broad.

(Details of License fee/Security Amount)

Name of Bank/Post office.	DD No./ Treasury challan/ FDR /NSC. NO	Dated	Amount

(Details of License fee/Security Amount)

Name of Bank	DD No./ Treasury challan/ FDR NO	Dated	Amount

Date

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh

Date

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh

9-- Amendment of Format (B.W.F.L.-2D)--In the said rules for existing format B.W.F.L.-2D set out in Column I below, the format as set out in Column II shall be substituted, namely--

Column-I*(Existing Format)*

LOW STRENGTH ALCOHOLIC
BEVERAGE BONDED WAREHOUSE

(BWFL-2D)

Licence to establish and run a Low strength
alcoholic beverage Bonded Warehouse.

Licence No.....
[Rule-(3)]

Photo of Applicant

Photo of warehouse

Latitude /Longitude of Warehouse.....

- 1- Licence Number.....
- 2- District.....
- 3- Name, address and aadhar number of
Licencee.....

has deposited the licence fee
Rs.....for BWFL-2D and
security amount of Rs.in
government treasury preferably through e-
payment or National Saving Certificate/Fixed
deposit receipt pledged in favour of Excise
commissioner Uttar Pradesh as detail
mentioned below. He has also executed a
general bond.

Licence is hereby, granted under and
subject to provisions of the United Provinces
Excise Act, 1910 (U.P.Act no. IV of 1910) and
the rules and orders made there under to

.....
.....
(hereinafter referred to as licensee) authorising
him to import under bond, store and sell sealed
bottles of low strength alcoholic beverage in
U.P. at place.....in
the district.....(hereinafter
called the licensed premises) during the period
commencing of
ending on 31st March.....
(both days inclusive) subject to the following
conditions, the infringement of which either by
the licensee or any person employed by him
may entail imposition of penalty on the
licensee, forfeiture of security and cancellation
of licence.

Column-II*(Format as hereby substituted)*

LOW STRENGTH ALCOHOLIC BEVERAGE
BONDED WAREHOUSE

(BWFL-2D)

Licence to establish and run a Low strength
alcoholic beverage Bonded Warehouse.

Licence No.....
[Rule-(3)]

Photo of Applicant

Photo of warehouse

Latitude /Longitude of Warehouse.....

- 4- Licence Number.....
- 5- District.....
- 6- Name, address and aadhar number of
Licencee.....

has deposited the licence fee
Rs.....for BWFL-2D and
security amount of Rs.in
government treasury preferably through e-payment or
Fixed Deposit Receipt pledged in favour of
Excise commissioner Uttar Pradesh as detail
mentioned below. He has also executed a
general bond.

Licence is hereby, granted under and subject
to provisions of the United Provinces Excise
Act, 1910 (U.P.Act no. IV of 1910) and the rules
and orders made there under to

.....
.....
(hereinafter referred to as licensee) authorising
him to import under bond, store and sell sealed
bottles of low strength alcoholic beverage in
U.P. at place.....in
the district.....(hereinafter
called the licensed premises) during the period
commencing of
ending on 31st March..... (both
days inclusive) subject to the following
conditions, the infringement of which either by
the licensee or any person employed by him may
entail imposition of penalty on the licensee,
forfeiture of security and cancellation of licence.

Column-I (Existing Format)	Column-II (Format as hereby substituted)
Premises: Name & Address of owner	Premises: Name & Address of owner
Place-village/mohalla	Place-village/mohalla
P.S.....	P.S.....
Tehsil.....	Tehsil.....
District.....	District.....
Boundary:-	Boundary:-
North.....	North.....
South.....	South.....
East.....	East.....
West.....	West.....

CONDITIONS

1. Issue of low strength alcoholic beverage from the said Bonded Warehouse shall be made to any other bonded warehouse of the State under bond or to any wholesaler FL-2 licensee of State on prepayment of consideration fee and other charges.

2. Issue of low strength alcoholic beverage from the said Bonded Warehouse shall be made at such strength only as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.

3. The Officer In-charge of the Bonded Warehouse is empowered to stop with the prior sanction of the Deputy Excise Commissioner of the charge concerned, pending the orders of the Excise Commissioner, the issues of low strength alcoholic beverage which he considers doubtful for consumption and is required to send samples of such low strength alcoholic beverage for analysis without delay.

4. The licensee shall maintain such minimum stock of such brand at the warehouse keeping in view the demands and requirements of the particular brands by the wholesale vendors.

CONDITIONS

1. Issue of low strength alcoholic beverage from the said Bonded Warehouse shall be made to any other bonded warehouse of the State under bond or to any wholesaler FL-2B licensee of State on prepayment of consideration fee and other charges.

2. Issue of low strength alcoholic beverage from the said Bonded Warehouse shall be made at such strength only as may be fixed from time to time by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.

3. The Officer In-charge of the Bonded Warehouse is empowered to stop with the prior sanction of the Deputy Excise Commissioner of the charge concerned, pending the orders of the Excise Commissioner, the issues of low strength alcoholic beverage which he considers doubtful for consumption and is required to send samples of such low strength alcoholic beverage for analysis without delay.

4. The licensee shall maintain such minimum stock of such brand at the warehouse keeping in view the demands and requirements of the particular brands by the wholesale vendors.

Column-I
(Existing Format)
CONDITIONS

5. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and storage of low strength alcoholic beverage at the Warehouse. The licensee shall provide adequate number of racks, almirahs, boxes and other equipments as may be necessary for storing stocks and may also put his own lock thereon along with the lock of officer in-charge.

6. The licensee shall supply low strength alcoholic beverage in bottles/flasks of capacities as may be determined by Excise Commissioner from time to time.

7. The labels affixed to the bottles shall contain all essential printed requirements prescribed in the U.P. Bottling of low strength alcoholic beverage Rules, 1969 as amended from time to time. The licensee shall make proper arrangement for applying the security code as approved by the Excise Department in the bond premises. No bottles of low strength alcoholic beverages shall be sold on which the security code approved by the Excise Department is not affixed.

8. The licensee shall be required to post his authorized Agent duly approved by the Deputy Excise Commissioner of the charge and shall arrange for the loading and unloading of the incoming consignments of low strength alcoholic beverage and issues from the Bonded Warehouse. The warehouse shall be fitted with a camera having an I.P. address. The warehouse should be equipped with fire fighting equipments.

9. The licensee shall keep a true and correct account of the quantity of low strength alcoholic beverage received, issued and held in balance at such bonded warehouse. The account shall be correctly maintained upto date daily in a register in prescribed form. Pages of the Account Register shall be numbered and sealed with a rubber seal of concerned District Excise Officer. Pages and counterfoils of the passes covering the receipt and issues of low strength alcoholic beverage shall be properly kept and shall at all times be open to inspection by the authorities of Excise Department. MIS (Management Information System) of related details shall be uploaded on the prescribed portal at fixed intervals.

Column-II
(Format as hereby substituted)
CONDITIONS

5. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and storage of low strength alcoholic beverage at the Warehouse. The licensee shall provide adequate number of racks, almirahs, boxes and other equipments as may be necessary for storing stocks and may also put his own lock thereon along with the lock of officer in-charge.

6. The licensee shall supply low strength alcoholic beverage in bottles/flasks/cans of capacities as may be determined by Excise Commissioner from time to time.

7. The labels affixed to the bottles shall contain all essential printed requirements prescribed in the U.P. Bottling of low strength alcoholic beverage Rules, 1969 as amended from time to time. The licensee shall make proper arrangement for applying the security code as approved by the Excise Department in the bond premises. No bottles of low strength alcoholic beverages shall be sold on which the security code approved by the Excise Department is not affixed.

8. The licensee shall be required to post his authorized Agent duly approved by the Deputy Excise Commissioner of the charge and shall arrange for the loading and unloading of the incoming consignments of low strength alcoholic beverage and issues from the Bonded Warehouse. The warehouse shall be fitted with a camera having an I.P. address. The warehouse should be equipped with fire fighting equipments.

9. The licensee shall keep a true and correct account of the quantity of low strength alcoholic beverage received, issued and held in balance at such bonded warehouse. The account shall be correctly maintained upto date daily in a register in prescribed form. Pages of the Account Register shall be numbered and sealed with a rubber seal of concerned District Excise Officer. Pages and counterfoils of the passes covering the receipt and issues of low strength alcoholic beverage shall be properly kept and shall at all times be open to inspection by the authorities of Excise Department. MIS (Management Information System) of related details shall be uploaded on the prescribed portal at fixed intervals.

Column-I
(Existing Format)
CONDITIONS

10. Licensee shall be bound by all the general rules for the management of the Bonded Warehouse and for issues of low strength alcoholic beverage therefrom.

11. Licensee shall furnish to the Excise Commissioner an exhaustive list of brands ex-bond price, maximum wholesale and maximum retail rates for approval along with registration fee for brands registration as directed by the Excise Commissioner from time to time. Licensee shall also before bringing any label into use, submit exact copies thereof in quadruplet every year with the treasury challan of approval fee of every label capacity wise as prescribed by the Excise Commissioner from time to time to the District Excise Officer of the concerned district who will forward them to the Excise Commissioner for his approval. No change in the MRP shall be allowed during the year of operation unless especially permitted by the Excise Commissioner.

12. The licensee shall abide by the conditions of this licence and provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under.

13. In case the licence is cancelled during the currency of the period of licence or is not renewed on its expiry, the licensee shall forthwith intimate the whole stock of low strength alcoholic beverage held in balance at the Bonded Warehouse to the Officer In-charge and dispose off the balance stock only under directions given by the Excise Commissioner.

14. The license premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm by evening, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified by the Collector. The Licencing Authority/Collector may also order for closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/days.

Column-II
(Format as hereby substituted)
CONDITIONS

10. Licensee shall be bound by all the general rules for the management of the Bonded Warehouse and for issues of low strength alcoholic beverage therefrom.

11. Licensee shall furnish to the Excise Commissioner an exhaustive list of brands ex-bond price, maximum wholesale and maximum retail rates for approval along with registration fee for brands registration as directed by the Excise Commissioner from time to time. Licensee shall also before bringing any label into use, submit exact copies thereof in quadruplet every year with the treasury challan of approval fee of every label capacity wise as prescribed by the Excise Commissioner from time to time to the District Excise Officer of the concerned district who will forward them to the Excise Commissioner for his approval. No change in the MRP shall be allowed during the year of operation unless especially permitted by the Excise Commissioner.

12. The licensee shall abide by the conditions of this licence and provisions of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) and the rules and orders made there under.

13. In case the licence is cancelled during the currency of the period of licence or is not renewed on its expiry, the licensee shall forthwith intimate the whole stock of low strength alcoholic beverage held in balance at the Bonded Warehouse to the Officer In-charge and dispose off the balance stock only under directions given by the Excise Commissioner.

14. The license premises shall remain open for sale on all days from 9.00 am. to 8.00 pm by evening, except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26 January (Republic Day) and upto 3 more days as notified by the Collector. The Licencing Authority/Collector may also order for closure of shop in account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/days.

Column-I
(Existing Format)
CONDITIONS

15. On receiving demand for wholesale supply of low strength alcoholic beverage from FL-2 licensees of the districts, the supply may be ensured on the principle of "first come and first served" failing which penal action may be taken against the licensees.

16. The labels affixed to the bottles shall carry the maximum retail price fixed for every brand of liquors issued from the bond. Without printed M.R.P. on the labels no sale is allowed.

17. Licensee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code on them.

Column-II
(Format as hereby substituted)
CONDITIONS

15. On receiving demand for wholesale supply of low strength alcoholic beverage from FL-2B licensees of the districts, the supply may be ensured on the principle of "first come and first served" failing which penal action may be taken against the licensees.

16. The labels affixed to the bottles shall carry the maximum retail price fixed for every brand of liquors issued from the bond. Without printed M.R.P. on the labels no sale is allowed.

17. Licensee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code affixed on them.

18. On all the six faces of the cartons of Low Strength Alcoholic Beverages to be imported in Uttar Pradesh, "For Sale in U.P." shall be printed in the minimum size of one inch black letters on a red strip of one and a half inch broad.

(Details of License fee/Security Amount)

Name of Bank/Post office.	DD No./ Treasury challan/ FDR /NSC. NO	Dated	Amount

Date

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh

(Details of License fee/Security Amount)

Name of Bank	DD No./ Treasury challan/ FDR NO	Dated	Amount

Date

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh

10. **Amendment of Form FL-22**--In the said rules for existing form FL-22 set out in Column I below, the form as set out in Column II shall be substituted, namely-

Column-I (Existing Format)	Column-II (Format as hereby substituted)
CONDITIONS Form FL-22 (Permit for import of Foreign liquor/ beer/ wine/ Low strength alcoholic Beverages) (Rule-5)	CONDITIONS Form FL-22 (Permit for import of Foreign liquor/ Beer/ Wine/ Low strength alcoholic beverages) (Rule-5)
Permit No.....Date..... Permission for the import of Foreign liquor/beer/wine/Low strength alcoholic Beverages is hereby granted under import permit no.dated.....which shall be valid up to the date.....	Permit No.....Date..... Permission for the import of Foreign liquor/beer/wine/Low strength alcoholic Beverages is hereby granted under import permit no.dated.....which shall be valid up to the date.....
Detail is given as below-- 1. Name and address of consigner..... 2. Name and address of consignee..... 3. Description of Foreign liquor / beer/ wine/ Low strength alcoholic Beverages and category quantity (in B.L.)	Detail is given as below-- 1. Name and address of consigner..... 2. Name and address of consignee..... 3. Description of Foreign liquor / Beer/ Wine/ Low strength alcoholic beverages and category quantity (in B.L.)
Sl. No. Brand & Category Quantity of liquor to be imported (B.L.)	Sl. No. Brand & Category Quantity of liquor to be imported (B.L.)
1	

P. GURU PRASHAD,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.